



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 8] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 25—मार्च 3, 2006 (फाल्गुन 6, 1927)

No. 8] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 25—MARCH 3, 2006 (PHALGUNA 6, 1927)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग I—खण्ड 2

## [PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

## प्रधानमंत्री कार्यालय

नई दिल्ली-110011, दिनांक 6 फरवरी 2006

सं.ए. 22012/01/2006-पी.एम.ए.--अर्थिक मन्त्रालय विभाग में संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्ति हेतु चयन हो जाने के परिणामस्वरूप, श्री कुमार संजय कृष्ण, आई.ए.एस. (एएम : 85) को दिनांक 6 फरवरी, 2006 के अपराह्न से प्रधानमंत्री कार्यालय में निदेशक के रूप में उनके कार्यों से मुक्त किया जाता है।

पी. के. राव, अवर सचिव

दिनांक 8 फरवरी 2006

सं. ए.-22017/4/2004-पी.एम.ए.--राष्ट्रपति जी, गृह मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा संवर्ग के उच्च श्रेणी लिपिक श्री जय प्रकाश को दिनांक 1 जून, 2004 के पूर्वाह्न से प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री श्री पृथ्वीराज चव्हाण के निजी स्टाफ में 6,500-200-10,500 रुपये के वेतनमान में प्रथम वैयक्तिक सहायक के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. राज्य मंत्री (प्रधानमंत्री कार्यालय) के निजी स्टाफ में श्री जय प्रकाश की नियुक्ति राज्य मंत्री (प्रधानमंत्री कार्यालय) के कार्यकाल तक और उनके विवकाधीन रहेगी।

पी. के. राय, अवर सचिव

## राज्य सभा सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 6 फरवरी 2006

सं. आर.एस./1604/स्था. (का.)--राज्य सभा सचिवालय में उपसचिव श्री प्रताप चन्द्र पाइकराय का 25 जनवरी, 2006 को निधन हो गया।

प्र. रं. गुहाराय, निदेशक

दिनांक 10 फरवरी 2006

सं. आर.एस./6 (iv)/2006/8-कार्मिक--डॉ. कर्ण सिंह के राज्य सभा के लिए पुनर्निर्वाचित होने और उन्हें 28 जनवरी, 2006 से आचार समिति के सदस्य और अध्यक्ष के रूप में पुनः नाम निर्देशित किए जाने के

परिणामस्वरूप श्री मोहन सिंह सेन को 28 जनवरी, 2006 के पूर्वाह्न से उनके वैयक्तिक स्टाफ में सह-पदावसान के आधार पर वरिष्ठ निजी सचिव के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है।

2. उक्त नियुक्ति राज्य सभा में आचार समिति के वर्तमान अध्यक्ष के विवेकाधीन है और उनके कार्यकाल की समाप्ति के साथ ही समाप्त हो जायेगी।

प्र. रं. गुहाराय, निदेशक

दिनांक 13 फरवरी 2006

सं. आर.एस./6 (iv)/2006/9-कार्मिक--श्री वायालार रवि की 29 जनवरी, 2006 से प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री के रूप में नियुक्ति होने पर उनके द्वारा मानव संसाधन विकास संबंधी समिति के अध्यक्ष का पदत्याग करने के परिणामस्वरूप, श्री सुरेश चन्द जैन, वरिष्ठ निजी सचिव जोकि उनके व्यक्तिगत स्टाफ में सह-पदावसान के आधार पर नियुक्त थे, की सेवाएं 29 जनवरी, 2006 से 15 दिन की परिसमापन अवधि दिए जाने के पश्चात् 13 फरवरी, 2006 के दोपहर पश्चात् से समाप्त होती हैं।

प्र. रं. गुहाराय, निदेशक

योजना आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 23 जनवरी 2006

सं.ए-44011/4/2000-प्रशासन-1--सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग के दिनांक 12.01.2006 के आदेश सं. 12016/3/एन. एफ.एस.जी./05-06-2005-आई.एस.एस. के अनुपालन में आई.एस.एस. के जे.ए.जी. अधिकारी तथा योजना आयोग में उप सलाहकार श्रीमती रत्न अंजन जेना को दिनांक 05.01.2006 से 14,300-400-18,300/- रुपये के वेतनमान में आई.एस.एस. की एन.एफ.एस.जी. प्रदान की जाती है।

2. उन्हें आई.एस.एस. के एन.एफ.एस.जी. प्रदान किये जाने के परिणामस्वरूप, उनके द्वारा धारित उप सलाहकार के पद को उनके लिए वैयक्तिक रूप से उन्नयन करके उन्हें निदेशक का पदनाम दिया जाता है।

के. के. छाबड़ा, अवर सचिव

दिनांक 1 फरवरी 2006

सं. एफ. 6 (1962)/2006-प्रशासन-1--आर्थिक कार्य विभाग के दिनांक 13.01.2006 के आदेश सं. 13016/2/2005-आई.ई.एस. के अनुपालन में आई.ई.एस. के एन.एफ.एस.जी. अधिकारी श्री अम्बरीष कुमार ने दिनांक 30.01.2006 (पूर्वाह्न) से योजना आयोग में 14,300-400-18,300 रुपये के वेतनमान में निदेशक का पदभार संभाल लिया है।

के. के. छाबड़ा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 30 जनवरी 2006

सं. ए-43014/01/2006-प्रशा. II.--भारतीय आर्थिक सेवा के ग्रेड-IV में प्रोन्नति और आर्थिक मामले विभाग के दिनांक 18.1.2006 के आदेश

सं. 11016/3/2004-आई.ई.एस. के तहत योजना आयोग में अनुसंधान अधिकारी के रूप में तैनाती के परिणामस्वरूप, निम्नलिखित अधिकारियों ने प्रत्येक के सामने उल्लिखित दिनांक से योजना आयोग में 8,000-275-13,500/- रुपये के वेतनमान में अनुसंधान अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया है :-

क्र. सं.	नाम	कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
1.	श्री नारायण सिंह	19.01.2006 (पूर्वाह्न)
2.	श्री बी. बी. शर्मा	19.01.2006 (पूर्वाह्न)
3.	श्री अनिल कुमार भाटिया	19.01.2006 (अपराह्न)
4.	श्री बी. एल. मीणा	25.01.2006 (पूर्वाह्न)
5.	श्री गंगा राम	25.01.2006 (पूर्वाह्न)

आर. के. परमार, अवर सचिव

दिनांक 31 जनवरी 2006

सं. ए-20012/3/89-प्रशा. II.-- भारतीय आर्थिक सेवा के ग्रेड-IV में नियमित आधार पर 8,000-275-13,500/- रुपये के वेतनमान में उनकी प्रोन्नति और दिनांक 18.1.2006 के आर्थिक मामले विभाग के आदेश सं. ए-11016/3/2004-आई.ई.एस. के तहत आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) में सहायक निदेशक के रूप में तैनाती के परिणामस्वरूप योजना आयोग में श्री सन्यासी प्रधान, आर्थिक अधिकारी, को योजना आयोग के कार्यों से कार्यमुक्त किया जाता है और उनकी सेवा दिनांक 31.01.2006 (अपराह्न) से डीआईपीपी को सौंपी जाती है।

आर. के. परमार, अवर सचिव

दिनांक 01 फरवरी 2006

सं. ए-12025/2/2002-प्रशा. II.--योजना आयोग की दिनांक 11 जुलाई, 2005 की समसंख्यक अधिसूचना के क्रम में, श्रीमती वंदना शर्मा की वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (जल आपूर्ति) के रूप में तदर्थ नियुक्ति की अवधि को नियमित पदधारी के आने तक अथवा अगले आदेशों तक जो भी पहले हो दिनांक 30.06.2006 तक बढ़ाया जाता है।

2. यह तदर्थ नियुक्ति श्रीमती वंदना शर्मा को वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी के पद पर नियमित नियुक्ति का दावा करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी और न ही उनकी तदर्थ नियुक्ति की इस अवधि को वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी के ग्रेड में वरिष्ठता के प्रयोजन से गिना जायेगा।

आर. के. परमार, अवर सचिव

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन

समंक विधायन प्रभाग मुख्यालय

कोलकाता-700108, दिनांक 06 फरवरी 2006

सं. ए.-38011/1/05-सी.एस.डब्ल्यू. I.-- श्री हरिपद दास, लेखा-सह-प्रशा. अधिकारी, समंक विधायन प्रभाग मुख्यालय, राष्ट्रीय

प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, कोलकाता, अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर सरकारी सेवा से दिनांक 31 दिसम्बर, 2005 के अपराह्न से सेवा निवृत्त हो गये।

एस. के. दास, निदेशक एवं कार्यालय प्रमुख

विधि एवं न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 2 फरवरी 2006

सं. ए.-32013/2/2005-प्रशा. I. (वि. वि.)--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की संस्तुति पर विधि एवं न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग के राजभाषा खण्ड में वर्तमान में तदर्थ आधार पर उप विधायी परामर्शी (प्रादेशिक भाषा) के रूप में कार्यरत श्रीमती लक्ष्मी बोरा, सहायक विधायी परामर्शी (असमिया) को, दिनांक 31 जनवरी, 2006 के पूर्वाह्न से और अगले आदेशों तक, इस विभाग के उक्त खण्ड में, नियमित आधार पर उप विधायी परामर्शी (प्रादेशिक भाषा) नियुक्त करते हैं।

वी. रविन्द्रन, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 8 फरवरी 2006

सं. ए.-38011/2/91-प्रशा. I. (वि. वि.)--विधि एवं न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग के राजभाषा खण्ड में तदर्थ आधार पर अधीक्षक (मुद्रण) श्री ए. के. शारदा, अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर दिनांक 31 जनवरी, 2006 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवा-निवृत्त हो गए हैं।

किरण पुरी, उप सचिव

(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 31 जनवरी 2006

सं. ए.-32015/8/2005-प्रशा. IV. (वि. का.)--कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 21.12.2005 के का.ज्ञा.सं. 5/21/2005-सीएस-II के क्रम में और अधिकारियों द्वारा कार्यभार ग्रहण कर लिए जाने के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के निम्नलिखित अधिकारियों को 10,000--15,200/- रुपये के वेतनमान में विधि और न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग में उनके नाम के समक्ष उल्लिखित तिथि से दिनांक 30.06.2006 तक अथवा उक्त पद को नियमित आधार पर भरे जाने तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, तदर्थ आधार पर मुख्य निजी सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं :-

क्र. सं.	नाम और पदनाम	जिस संवर्ग के हैं	विधि कार्य विभाग में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि
1.	श्री एस. सी. बत्रा, मुख्य निजी सचिव (स्वस्थाने)	शहरी विकास मंत्रालय	20.01.2006 (पूर्व.)
2.	श्री विजय कुमार शर्मा, निजी सचिव	संघ लोक सेवा आयोग	30.01.2006 (पूर्व.)

2. उक्त प्रोन्नति पूर्णतः तदर्थ आधार पर की गई है और इससे उन्हें ग्रेड में अनिश्चित समय तक बने रहने का अथवा दिनांक 30.06.2006 तक मुख्य निजी सचिव के ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

यशवंत सिंह, उप सचिव

(न्याय विभाग)

नई दिल्ली-110011, दिनांक 3 जनवरी 2006

सं. के. 13013/2/2005-यू.एस. I.--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 224 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, (i) श्री माकेना ईश्वरा नरसिंहा पायुडु, (ii) श्री देसराजु अप्पारावु और (iii) श्री ग्रंथि भवानी प्रसाद, को उसी वरीयता क्रम में, अपना-अपना कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीश सहर्ष नियुक्त करते हैं।

डॉ. पी. के. सेठ, संयुक्त सचिव

दिनांक 4 जनवरी 2006

सं. के. 11017/11/2005-यू.एस. II.--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 222(1क) के साथ पठित अनुच्छेद 222 के खण्ड (1), जम्मू एवं कश्मीर में लागू, द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल एवं भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार-विमर्श के उपरान्त, जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायविद् श्री रतन चन्द गांधी को, राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सहर्ष स्थानान्तरित करते हैं और उन्हें 18 जनवरी, 2006 को या इससे पूर्व राजस्थान उच्च न्यायालय में अपना कार्यभार ग्रहण करने का निदेश देते हैं।

डॉ. पी. के. सेठ, संयुक्त सचिव

सं. के. 11017/20/2005-यू.एस. II.--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार-विमर्श के उपरान्त, केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायविद् श्री राजीव गुप्ता को उत्तरांचल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में सहर्ष स्थानान्तरित करते हैं और उन्हें 18 जनवरी, 2006 को या इससे पहले उत्तरांचल उच्च न्यायालय में अपना कार्यभार ग्रहण करने का निदेश देते हैं।

डॉ. पी. के. सेठ, संयुक्त सचिव

सं. के. 13021/1/2005-यू.एस. I.--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 224 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, (i) श्री अडि सुभाष बघेटी, (ii) श्री अजिज कुट्टिया सोमय्या बोपण्णा, (iii) श्री नारायण अप्पा आनंदा और (iv) श्री जच्चाद रहीम, को उसी

वरीयता क्रम में, अपना-अपना कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए कर्नाटक उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीश सहर्ष नियुक्त करते हैं।

डॉ. पी. के. सेठ, संयुक्त सचिव

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 10 फरवरी 2006

सं. आई-14011/19/2005-आई.पी.एस.-1--भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 7 के उप-विनियम (3) में नीति उपबंधों का प्रयोग करते हुए संघ लोक सेवा आयोग ने दिनांक 08.02.2006 को चयन समिति की दिनांक 01.08.2005 की बैठक में इसके द्वारा बनाई गई 2004 एवं 2005 की उन वार्षिक चयन सूचियों को अनुमोदित कर दिया है जिसमें भारतीय पुलिस सेवा के उत्तर प्रदेश संवर्ग में वर्ष 2004 एवं 2005 में तीन एवं तेरह मौलिक रिक्तियों को भरे जाने हेतु उत्तर प्रदेश राज्य पुलिस सेवा के तीन एवं तेरह अधिकारियों तथा दो ऐसे अधिकारियों का नाम शामिल किया गया है जोकि पहले तत्कालीन उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा के सदस्य थे एवं प्रदेश के विभाजन पर बनाए गये उत्तरांचल राज्य को आवंटित किए गए थे परन्तु जो माननीय उच्चतम न्यायालय के उनको उत्तरांचल आवंटित किए जाने को स्थगित करने वाले अंतरिम आदेश के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश में कार्य कर रहे हैं।

चयन सूची-2004

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	जन्म तिथि
1.	श्रीमती बीना भुक्शे	02.01.1954
2.	श्री दिनकर सिंहा	15.01.1954
3.	श्री ओम प्रकाश सागर	16.07.1955

चयन सूची-2005

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	जन्म तिथि
1	2	3
	श्री/श्रीमती/कु.	
1.	राजेश कुमार सिंह राठौर	23.10.1956
2.	राजेन्द्र प्रसाद चतुर्वेदी	01.01.1955
3.	मैया दीन कर्णधार	02.01.1955
4.*	बलबीर सिंह	15.04.1955
5.	कृपा शंकर सिंह	25.06.1953
6.**	नवनीत कुमार राना	23.04.1956
7.	प्रकाश त्रिपाठी	03.09.1953
8.	विजय कुमार	03.03.1957
9.	जितेन्द्र प्रताप सिंह	30.12.1956

1	2	3
	श्री/श्रीमती/कु.	
9ए.***	जी. एन. गोस्वामी	08.06.1956
10.	अक्रामुल हक	16.07.1951
10ए.***	विजय यादव	01.05.1957
11.	खोलर प्रसाद कनौजिया	01.10.1955
12.	विनोद कुमार दोहारे	30.09.1956
13.	कृष्ण मोहन	03.09.1956

\* क्रम संख्या 4 पर उल्लिखित अधिकारी का देहांत हो गया है।

\*\* क्रम संख्या 6 पर दिये गये नाम को उनके विरुद्ध लंबित अनुशासनिक मामलों के निपटन किये जाने के अध्यक्षीन सूची में अंतिम रूप से शामिल किया गया है।

\*\*\* क्रम संख्या 9ए एवं 10ए पर दिये गये नामों को चयन सूची के सामान्य आकार के बाहर जाकर शामिल किया गया है क्योंकि इन अधिकारियों ने माननीय उच्चतम न्यायालय से अपने उत्तरांचल राज्य को आवंटित किए जाने के विरुद्ध अंतरिम स्थगन आदेश प्राप्त किया हुआ है। अतः भारतीय पुलिस सेवा में इनकी वास्तविक नियुक्ति माननीय उच्चतम न्यायालय के सम्मुख लंबित इन मामलों के परिणामों तथा उपयुक्त समय पर उनके विरुद्ध कोई सतर्कता मामलों के लंबित न होने पर निर्भर करेगी।

2. चयन समिति की उपरोक्त सिफारिशें निम्नपठित न्यायिक मामलों के अधीन होंगी :-

- एस.एल.पी. सं. 11642/2002 उत्तर प्रदेश सरकार एवं अन्य बनाम श्री दिनकर सिंहा।
- रिट पेटिशन सं. 154 (एस/बी)/2005 उत्तर प्रदेश सरकार एवं अन्य बनाम श्री ओ. पी. सागर।
- एस.एल.पी. (सिविल) सं. 24221-24243/2003 श्री योगेन्द्र यादव एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश सरकार एवं अन्य।
- रिट पेटिशन सं. 798 (एस/बी)/2004 एवं क्लेम सं. 412/2004 श्री सुग्रीव गिरी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार एवं अन्य।
- केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, लखनऊ बेंच में पठित ओ.ए. सं. .... /2005 श्री डी. के. राय एवं अन्य बनाम संघ सरकार एवं अन्य।

3. चयन समिति की श्री जी. एन. गोस्वामी एवं श्री विजय यादव, जिन्हें मूल रूप से उत्तरांचल राज्य को आवंटित किया गया है और जिनके नाम वर्ष 2005 की चयन सूची में क्रम सं. 9ए एवं 10ए पर उल्लिखित हैं, के विषय में की गई सिफारिशें माननीय उच्चतम न्यायालय में उनके उत्तरांचल राज्य को आवंटित किए जाने वाले मामलों के अंतिम परिणामों के अध्यक्षीन होंगी। परिणामस्वरूप क्रम संख्या 12 एवं 13 पर उल्लिखित नामों का वर्ष 2005 की सूची में शामिल किया जाना भी माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित उपरोक्त मामलों के परिणाम द्वारा प्रभावित होगा। यदि भविष्य में क्रम संख्या 9ए एवं 10ए पर उल्लिखित अधिकारी वास्तविक

रूप से भारतीय पुलिस सेवा के उत्तर प्रदेश संवर्ग में वर्ष 2005 की चयन सूची से माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित इन मामलों में आने वाले अंतिम परिणाम के अनुपालन में नियुक्त किए जाते हैं तो क्रम संख्या 12 एवं 13 पर उल्लिखित अधिकारियों को इस चयन सूची से इसलिए बाहर जाना होगा ताकि क्रम संख्या 9ए एवं 10ए पर उल्लिखित अधिकारियों की नियुक्ति हेतु रिक्ति बन सके।

वाई. पी. ढींगरा, अवर सचिव

-----

सं. आई.-14011/19/2005-आई.पी.एस.-1 (II)--राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) के साथ पठित भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) विनियम, 1954 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्तर प्रदेश राज्य पुलिस के निम्नलिखित सदस्यों को भारतीय पुलिस सेवा में परिवीक्षा पर नियुक्त करते हैं तथा उन्हें भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) विनियम, 1954 के विनियम 5 के उप-विनियम (1) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश संवर्ग प्रदान करते हैं। यह नियुक्तियां अधिसूचना के जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगी :--

#### चयन सूची-2004

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	जन्म तिथि
1.	श्रीमती बीना भुक्श	02.01.1954
2.	श्री दिनकर सिंहा	15.01.1954
3.	श्री ओम प्रकाश सागर	16.07.1955

#### चयन सूची-2005

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	जन्म तिथि
1	2	3

श्री/श्रीमती/कुमा.

1.	राजेश कुमार सिंह राठौर	23.10.1956
2.	राजेन्द्र प्रसाद चतुर्वेदी	01.01.1955
3.	मैया दीन कर्णधार	02.01.1955
4.	कृपा शंकर सिंह	25.06.1953
5.	प्रकाश त्रिपाठी	03.09.1953
6.	विजय कुमार	03.03.1957
7.	जितेन्द्र प्रताप सिंह	30.12.1956
8.	अक्रामुल हक	16.07.1951
9.	घोलार प्रसाद कनौजिया	01.10.1955
10.	विनोद कुमार दोहरे	30.09.1956
11.	कृष्ण मोहन	03.09.1956

2. उपरोक्त नियुक्तियां निम्नपठित न्यायायिक मामलों के अधीन होंगी :--

- एस.एल.पी. सं. 11642/2002 उत्तर प्रदेश सरकार एवं अन्य बनाम श्री दिनकर सिंहा।
- रिट पेटिशन सं. 154 (एस/बी)/2005 उत्तर प्रदेश सरकार एवं अन्य बनाम श्री ओ. पी. सागर।
- एस.एल.पी. (सिविल) सं. 24221-24243/2003 श्री योगेन्द्र यादव एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश सरकार एवं अन्य।
- रिट पेटिशन सं. 798 (एस/बी)/2004 एवं क्लेम सं. 412/2004 श्री सुग्रीव गिरी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार एवं अन्य।
- केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, लखनऊ बेंच में पठित ओ.ए.सं....../2005 श्री डी. के. राय एवं अन्य बनाम संघ सरकार एवं अन्य।

3. चयन सूची 2005 के क्रम सं. 10 एवं 11 पर उल्लिखित श्री विनोद कुमार दोहरे एवं श्री कृष्ण मोहन की नियुक्ति माननीय उच्चतम न्यायालय के सम्मुख श्री जी. एन. गोस्वामी एवं श्री विजय यादव जिनका उल्लेख इस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 1-1401/19/2005-आई. पी. एस.-1 (I) दिनांक 10 फरवरी 2006 में क्रम संख्या 9ए एवं 10ए पर किया गया है को उत्तरांचल राज्य आर्बिट्रि किए जाने संबंधी लंबित मामलों के परिणाम से प्रभावित होगी। परिणामस्वरूप क्रम संख्या 10 एवं 11 पर उल्लिखित नामों का वर्ष 2005 की सूची में शामिल किया जाना भी माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित उपरोक्त मामलों के परिणाम द्वारा प्रभावित होगा। यदि भविष्य में इस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या I-1401/19/2005-आई. पी.एस.-1 (I) दिनांक 10 फरवरी 2006 में क्रम संख्या 9ए एवं 10ए पर उल्लिखित अधिकारी वास्तविक रूप से भारतीय पुलिस सेवा के उत्तर प्रदेश संवर्ग में वर्ष 2005 की चयन सूची से माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित इन मामलों में आने वाले अंतिम परिणाम के अनुपालन में नियुक्त किए जाते हैं तो क्रम संख्या 10 एवं 11 पर उल्लिखित अधिकारियों को इस चयन सूची से इसलिए बाहर जाना होगा ताकि क्रम संख्या 9ए एवं 10ए पर उल्लिखित अधिकारियों की नियुक्ति हेतु रिक्ति बन सके।

वाई.पी. ढींगरा, अवर सचिव

-----

नई दिल्ली-110001, दिनांक 13 फरवरी 2006

सं. 14046/6/2006-यू.टी.एस.-I--भारतीय पुलिस सेवा (1991 बैच) के अरुणाचल प्रदेश गोवा-मिजोरम संघ राज्य क्षेत्र संवर्ग के अधिकारी श्री जे. बागरा का 8 अक्टूबर, 2005 को निधन हो गया है।

विक्रम देव दत्त, उप सचिव

-----

नई दिल्ली, दिनांक 13 फरवरी 2006

सं. ए-32013/01/2006-प्रशा. 1.--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा (के.स.से.) के निम्नलिखित अनुभाग अधिकारियों को ग्रेड-1 (अवर सचिव) के रूप में गृह मंत्रालय में वेतनमान 10,000-325-15,200/- रुपये में

पूर्णतया तदर्थ आधार पर उनके नाम के समक्ष दर्शाई गई तिथि से, अगले आदेशों तक नियुक्त करते हैं :--

1. श्री प्रीतम लाल	18.01.2006 (पूर्वाह्न)
2. श्रीमती एल. पी. श्रीवास्तव	18.01.2006 (पूर्वाह्न)
3. श्री बलराज सिंह	18.01.2006 (पूर्वाह्न)
4. श्री अरविन्द मुखर्जी	30.01.2006 (पूर्वाह्न)

2. तदर्थ पदोन्नति निम्नलिखित शर्तों के अधीन है :--

- (i) तदर्थ पदोन्नति अनिश्चित काल तक ग्रेड में निरंतर बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति हेतु चयन सूची में शामिल किए जाने अथवा चयन ग्रेड में वरिष्ठता के दावे का अधिकार प्रदान नहीं करती।
- (ii) तदर्थ नियुक्ति किसी भी समय बिना कारण बताये समाप्त की जा सकती है।

3. इसे कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के आदेश सं. 21/24/2005-सीएस. 1 दिनांक 17.01.2006 के अनुसरण में जारी किया जाता है।

जे. बी. शर्मा, अवर सचिव

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 6 फरवरी 2006

सं.13013/1/2003-अ.भा.से. (I)--केन्द्रीय सरकार, भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5 के उप-नियम (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सिविल सेवा परीक्षा 2002 के परिणामों के आधार पर भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्त किए गए नीचे सारणी के कॉलम 2 में उल्लिखित अधिकारियों को सारणी के कॉलम 3 में उनके नाम के सामने उल्लिखित संवर्ग आबंटित करती है :--

सारणी

क्र.	संवर्ग अधिकारियों के नाम	आबंटित संवर्ग
1	2	3
	श्री/श्रीमती/कुमा.	
1.	अंकुर गर्ग	मणिपुर-त्रिपुरा
2.	अविनाश चम्पावत	नागालैंड
3.	अस्वती एस.	उड़ीसा
4.	मयूर महेश्वरी	उत्तर प्रदेश
5.	स्वाति शर्मा	ए.जी.एम.यू.टी.
6.	कमल किशोर यादव	पंजाब
7.	भानु प्रकाश येतुरु	राजस्थान
8.	लोकेश कुमार सिंह	बिहार

1	2	3
	श्री/श्रीमती/कुमा.	
9.	अरुण राय वी.	तमिलनाडु
10.	सिद्धार्थ महाजन	उत्तरांचल
11.	अमित सिंगला*	पश्चिम बंगाल
12.	अवंतिका गौतम	असम-मेघालय
13.	बंदना प्रेयाशी	बिहार
14.	अमृता सोनी*	छत्तीसगढ़
15.	मुथुकृष्णन शंकरनारायणन	महाराष्ट्र
16.	संध्या भुल्लर	गुजरात
17.	अमित कुमार अग्रवाल	हरियाणा
18.	रितु सिंगला*	जम्मू और कश्मीर
19.	पूजा कुलकर्णी*	कर्नाटक
20.	राजेश कुमार शर्मा	झारखण्ड
21.	संजय गोयल	मध्य प्रदेश
22.	अनु जॉर्ज	तमिलनाडु
23.	नंदिनी पालीवाल	ए.जी.एम.यू.टी.
24.	मिनिस्थी एस.	उत्तर प्रदेश
25.	रूपवंत सिंह	गुजरात
26.	जोशी अजित बालाजी	हरियाणा
27.	सौरभ राव	महाराष्ट्र
28.	रितु सैन*	मणिपुर-त्रिपुरा
29.	अभिषेक चन्द्र	मणिपुर-त्रिपुरा
30.	रजत अग्रवाल	पंजाब
31.	प्रीतम बी. यशवंत	राजस्थान
32.	कोना ससिधर	आन्ध्र प्रदेश
33.	सुमंत सिंह	मणिपुर-त्रिपुरा
34.	कृष्ण कुणाल	राजस्थान
35.	अदुसुमिल्लि वी. राजा मौली	उत्तर प्रदेश
36.	विवेक पाण्डेय	ए.जी.एम.यू.टी.
37.	संजीव कुमार	महाराष्ट्र
38.	शैला बीवि ए.	महाराष्ट्र
39.	जवालकर दिलिपकुमार राजाराम	मणिपुर-त्रिपुरा
40.	सोवजन्या	सिक्किम
41.	आनंद कुमार आर.	तमिलनाडु
42.	ज्वाले नितिन भानुदास	उड़ीसा

1	2	3
	श्री/श्रीमती/कुमा.	
43.	नीरज कुमार पवन	राजस्थान
44.	कुर्वे सचिन शरदचन्द्र	उत्तरांचल
45.	सोलंकी प्रवीणभाई खोदाभाई	गुजरात
46.	विकास गोथलवाल	उत्तर प्रदेश
47.	श्रीप्रिया रंगाराजन	पश्चिम बंगाल
48.	बाबू ए.	आन्ध्र प्रदेश
49.	पिंकी जोवेल*	तमिलनाडु
50.	निशान्त बरवाडे	मध्य प्रदेश
51.	जयंत नर्लिकर	असम-मेघालय
52.	अनुपम कुमार	बिहार
53.	परदेशी सिद्धार्थ कोमल	छत्तीसगढ़
54.	स्वरूप पी.	गुजरात
55.	सुधा देवी एग.	हिमाचल प्रदेश
56.	अजीत कुमार साहु	जम्मू और कश्मीर
57.	अबूबकर सिद्दिकी पी.	झारखण्ड
58.	पद्मा महतो	ए.जी.एम.यू.टी.
59.	जफ्फर पी.सी.	कर्नाटक
60.	रिगिजयान सम्फैल	उत्तर प्रदेश
61.	पाटिल दयानेश्वर शालचन्द्र	मध्य प्रदेश
62.	लोकेश कुमार सिंह	आन्ध्र प्रदेश
63.	जयश्री एस. भोज*	उत्तर प्रदेश
64.	पतिबंदला अशोक बाबु	असम-मेघालय
65.	योगिता राणा	आन्ध्र प्रदेश
66.	असंग्बा चुबा ए. ओ.	बिहार
67.	कंगले रीना बाबासाहेब	छत्तीसगढ़
68.	प्रवीण कुमार टोप्पो	झारखण्ड
69.	मनोज कुमार मीणा	कर्नाटक
70.	रतन यू. केल्लकर	केरल

दिनांक 7 फरवरी 2006

सं.-13013/4/2003-अ.भा.से. (I)--भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 6 के अंतर्गत, राष्ट्रपति, वर्ष 2002 को हुई सिविल सेवा परीक्षा में सफल निम्नलिखित अभ्यर्थियों को उनके नामों के सामने दर्शाई गई तारीख से भारतीय प्रशासनिक सेवा में परीक्षा के आधार पर नियुक्त करते हैं। इन अभ्यर्थियों का संवर्ग आबंटन यथासमय पर अधिसूचित किया जाएगा :--

क्र. सं.	अभ्यर्थियों के नाम	नियुक्ति की तारीख
1	2	3
	श्री/श्रीमती/कुमा.	
1.	अंकुर गर्ग	1.9.2003 (पूर्वाह)
2.	अविनाश चम्पावत	1.9.2003 (पूर्वाह)
3.	अस्वती एस.	1.9.2003 (पूर्वाह)
4.	मयूर महेश्वरी	1.9.2003 (पूर्वाह)
5.	स्वाति शर्मा	1.9.2003 (पूर्वाह)
6.	कमल किशोर यादव	1.9.2003 (पूर्वाह)
7.	भनु प्रकाश येतुरु	1.9.2003 (पूर्वाह)
8.	लोकेश कुमार सिंह	1.9.2003 (पूर्वाह)
9.	अरुण राय बी.	1.9.2003 (पूर्वाह)
10.	सिद्धार्थ महाजन	1.9.2003 (पूर्वाह)
11.	अमित सिंगला	1.9.2003 (पूर्वाह)
12.	अंबतिका गौतम	1.9.2003 (पूर्वाह)
13.	बंदना प्रेयाशी	1.9.2003 (पूर्वाह)
14.	अमृता सोनी	1.9.2003 (पूर्वाह)
15.	मुथुकृष्णन शंकरनारायणन	1.9.2003 (पूर्वाह)
16.	संध्या भुल्लर	1.9.2003 (पूर्वाह)
17.	अमित कुमार अग्रवाल	1.9.2003 (पूर्वाह)
18.	रितु सिंगला	1.9.2003 (पूर्वाह)
19.	पूजा कुलकर्णी	1.9.2003 (पूर्वाह)
20.	राजेश कुमार शर्मा	1.9.2003 (पूर्वाह)
21.	संजय गोयल	1.9.2003 (पूर्वाह)
22.	अनु जॉर्ज	1.9.2003 (पूर्वाह)
23.	नंदिनी पालीवाल	1.9.2003 (पूर्वाह)
24.	मिनिस्थी एस.	1.9.2003 (पूर्वाह)
25.	रूपवंत सिंह	1.9.2003 (पूर्वाह)
26.	जोशी अजीत बालाजी	1.9.2003 (पूर्वाह)
27.	सौरभ राव	1.9.2003 (अपराह)

\*टिप्पणी :-- अमित सिंगला को ए.जी.एम.यू.टी. संवर्ग में स्थानांतरित कर दिया गया है; अमृता सोनी, रितु सिंगला और पिंकी जोवेल को उत्तर प्रदेश संवर्ग में स्थानांतरित कर दिया गया है; पूजा कुलकर्णी को तमिलनाडु संवर्ग में स्थानांतरित कर दिया गया है; रितु सैन को छत्तीसगढ़ संवर्ग में स्थानांतरित कर दिया गया है; जयश्री एस. भोज को महाराष्ट्र संवर्ग में स्थानांतरित कर दिया गया है।

के. के. शर्मा, डेस्क अधिकारी

1	2	3
	श्री/श्रीमती/कुमा.	
28.	रितु सेन	1.9.2003 (पूर्वाह)
29.	अभिषेक चन्द्र	1.9.2003 (पूर्वाह)
30.	रजत अग्रवाल	1.9.2003 (पूर्वाह)
31.	प्रीतम बी. यशवंत	1.9.2003 (पूर्वाह)
32.	कोना ससिधर	1.9.2003 (पूर्वाह)
33.	सुमंत सिंह	1.9.2003 (पूर्वाह)
34.	कृष्ण कुणाल	1.9.2003 (पूर्वाह)
35.	अदुसुमिल्लि बी. राजा मौली	1.9.2003 (पूर्वाह)
36.	धिवेक पाण्डेय	1.9.2003 (अपराह)
37.	संजीव कुमार	2.9.2003 (पूर्वाह)
38.	शैला बीवि ए.	3.9.2003 (पूर्वाह)
39.	जवालकर दिलिपकुमार राजाराम	1.9.2003 (पूर्वाह)
40.	सोवजन्या	5.9.2003 (पूर्वाह)
41.	आनंद कुमार आर.	2.9.2003 (अपराह)
42.	ज्वाले नितिन भानुदास	1.9.2003 (पूर्वाह)
43.	नीरज कुमार पवन	1.9.2003 (पूर्वाह)
44.	कुर्वे सचिन शरदचन्द्र	1.9.2003 (पूर्वाह)
45.	सोलंकी प्रवीणभाई खोदाभाई	1.9.2003 (पूर्वाह)
46.	विकास गोथलवाल	1.9.2003 (अपराह)
47.	श्रीप्रिया रंगाराजन	5.9.2003 (पूर्वाह)
48.	बाबु ए.	1.9.2003 (पूर्वाह)
49.	पिंकी जोवेल	1.9.2003 (पूर्वाह)
50.	निशान्त वरवाडे	1.9.2003 (पूर्वाह)
51.	जयंत नर्लिकर	1.9.2003 (पूर्वाह)
52.	अनुपम कुमार	1.9.2003 (पूर्वाह)
53.	परदेशी सिद्धार्थ कोमल	1.9.2003 (पूर्वाह)
54.	स्वरूप पी.	1.9.2003 (पूर्वाह)
55.	सुधा देवी एम.	1.9.2003 (पूर्वाह)
56.	अजीत कुमार साहु	7.9.2003 (अपराह)
57.	अबूबक्कर सिद्दिकी पी.	3.9.2003 (पूर्वाह)
58.	पद्मा महतो	3.9.2003 (अपराह)
59.	जफ्फर पी.सी.	3.9.2003 (पूर्वाह)
60.	रिंजियान सम्फैल	16.12.2004 (अपराह)

1	2	3
	श्री/श्रीमती/कुमा.	
61.	पाटिल दयानेश्वर शालचन्द्र	9.9.2003 (पूर्वाह)
62.	लोकेश कुमार सिंह	16.12.2004 (अपराह)
63.	जयश्री एस. भोज	1.9.2003 (अपराह)
64.	पतिबंदला अशोक बाबु	1.9.2003 (पूर्वाह)
65.	योगिता राणा	1.9.2003 (पूर्वाह)
66.	असंगबा चुबा ए.ओ.	1.9.2003 (पूर्वाह)
67.	कंगले रीना बाबासाहेब	1.9.2003 (पूर्वाह)
68.	प्रवीण कुमार टोप्पो	1.9.2003 (पूर्वाह)
69.	मनोज कुमार मीणा	1.9.2003 (पूर्वाह)
70.	रतन यू. केलकर	1.9.2003 (पूर्वाह)

के. के. शर्मा, डेस्क अधिकारी

दिनांक 10 फरवरी 2006

सं. 13013/3/2002-अ.भा.से (I)--भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार सिविल सेवा परीक्षा, 2001 के परिणामों के आधार पर भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्त नीचे दी गई सारणी के कॉलम 2 में उल्लिखित संवर्ग अधिकारियों को उनके नाम के सामने कॉलम 3 में उल्लिखित संवर्ग आबंटित करती है :--

सारणी

क्र. सं.	संवर्ग अधिकारियों का नाम	आबंटित किया गया संवर्ग
1	2	3
	श्री/श्रीमती/कुमा.	
1.	सत्य प्रकाश टी. एल.	हरियाणा
2.	अभिषेक जैन	हिमाचल प्रदेश
3.	मनीष रंजन	झारखंड
4.	दिनेश अरोड़ा	केरल
5.	अजीत कुमार	मध्य प्रदेश
6.	पी. वेलरासु	महाराष्ट्र
7.	नीतीश कुमार झा *	मणिपुर-त्रिपुरा
8.	कृष्ण कुमार *	नागालैंड
9.	गिरीश एस. एन.	उड़ीसा
10.	फदिमनी गोयल	ए.जी.एस.यू.टी.
11.	पंकज कुमार	उत्तर प्रदेश



1	2	3
	श्री/श्रीमती/कुमारी	
12.	राधिका शुक्ल	सिक्किम
13.	सिजी थॉमस के.	तमिलनाडु
14.	समराकी महापात्रा	पश्चिम बंगाल
15.	सौरभ गौड़	आन्ध्र प्रदेश
16.	पृथ्वी राज	राजस्थान
17.	कमल प्रीत सिंह	छत्तीसगढ़
18.	मृणालिनी दरसवाल*	मणिपुर-त्रिपुरा
19.	अर्चना पटनायक	तमिलनाडु
20.	देबजानी चक्रवर्ती	उड़ीसा
21.	मंजुला एन.	कर्नाटक
22.	निखिल कुमार	ए.जी.एम.यू.टी.
23.	सी. सुदर्शन रेड्डी	आन्ध्र प्रदेश
24.	शैलेश बागुली	उत्तरांचल
25.	सौरभ जैन	केरल
26.	संजय कुमार अग्रवाल	बिहार
27.	जीदम प्रवीण नीलकण्ठ राव	महाराष्ट्र
28.	समीर वर्मा	उत्तर प्रदेश
29.	संजय कुमार	मणिपुर-त्रिपुरा
30.	बलदेव पुरुषार्थ	मणिपुर-त्रिपुरा
31.	महम्मद शाइन	हरियाणा
32.	मनीष त्रिघटिया	पंजाब
33.	सौरभ भगत	जम्मू और कश्मीर
34.	शामला अहमद	कर्नाटक
35.	एम. सेलवेन्द्रन	मध्य प्रदेश
36.	अनूप कुमार यादव	महाराष्ट्र
37.	पंकज कुमार पाल	मणिपुर-त्रिपुरा
38.	मिमकॉगला जमीर	कर्नाटक
39.	जाडे विजय नामदेव राव	पंजाब
40.	तेली आशुतोष ए.	राजस्थान
41.	बोरकर चन्द्रशेखर नामदेव	मध्य प्रदेश
42.	डी. सेंथिल पांडियन	उत्तरांचल
43.	सेंथिल पांडियन सी.	उत्तर प्रदेश
44.	सुमित्र मोहन	पश्चिम बंगाल

1	2	3
	श्री/श्रीमती/कुमारी	
45.	एम. अंगमुथु	असम मेघालय
46.	पंकज कुमार	महाराष्ट्र
47.	प्रतिमा सतीशकुमार वर्मा	बिहार
48.	रोहित यादव	छत्तीसगढ़
49.	जय प्रकाश शिवहारे	गुजरात
50.	अर्चना*	मणिपुर-त्रिपुरा
51.	विकास आनन्द	ए.जी.एम.यू.टी.
52.	गौरी शंकर	उत्तर प्रदेश
53.	अवनेन्द्र सिंह	पश्चिम बंगाल
54.	ज्योति बुद्ध प्रकाश	आन्ध्र प्रदेश
55.	समयमूर्ति सी.	तमिलनाडु
56.	सर्वनान एम.	बिहार
57.	संदीप कुमार	गुजरात
58.	लोचन सिंह मीणा	गुजरात
59.	मीबांशैलंग आर. सेनरम	असम-मेघालय

(\*) टिप्पणी :—नीतीश कुमार झा को सिक्किम संवर्ग में स्थानांतरित कर दिया गया है; कृष्ण कुमार और मृणालिनी दरसवाल को उड़ीसा संवर्ग में स्थानांतरित कर दिया गया है; अर्चना को पश्चिम बंगाल संवर्ग में स्थानांतरित कर दिया गया है।

के. के. शर्मा, डेस्क अधिकारी

नई दिल्ली, दिनांक 8 फरवरी 2006

सं. ए-32013/1/2006-प्रशासन-I (जी)--राष्ट्रपति, सुश्री स्मिता कुमार, भारतीय डाक सेवा (87) को दिनांक 16 जनवरी, 2006 पूर्वाह्न से पांच वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

वी. के. वेलुकुट्टी, अवर सचिव

सं. ए-32014/2/2006-प्रशासन-I (जी)--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के सहायक, श्री राजबीर सिंह जो गृह मंत्रालय की पद संख्या पर कार्यरत हैं, को गृह मंत्रालय के दिनांक 05.01.2006 के कार्यालय आदेश सं. ए-43020/25/2004-प्रशासन-I में निर्धारित की गई शर्तों के अधधीन दिनांक 21 सितम्बर, 2005 के पूर्वाह्न से अगले आदेश होने तक 6,500-200-10,500/- रुपये के वेतनमान में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में तदर्थ आधार पर अनुभाग अधिकारी नियुक्त करते हैं।

वी. के. वेलुकुट्टी, अवर सचिव

नई दिल्ली-110067, दिनांक 1 फरवरी 2006

सं. 13016/01/2005-प्रशि.--राष्ट्रपति, श्री के. एस. कुमार, संयुक्त निदेशक, एमएस शाखा/सेना मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय को 2 जनवरी, 2006 की पूर्वाह्न से 5 वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, इनमें जो भी पहले हो, प्रतिनियुक्ति के आधार पर सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंध संस्थान, नई दिल्ली में संयुक्त निदेशक (भ्रमण-परक प्रशिक्षण) के रूप में नियुक्त करते हैं।

मनीषा भटनागर, डेस्क अधिकारी (प्रशि.)

विदेश मंत्रालय

कार्यालय, प्रोटोकॉल उप-प्रमुख (एफ)

नई दिल्ली, दिनांक 4 जनवरी 2006

सं. डी-III/460/सी. एफ.-01/2005--भारत के राष्ट्रपति ने श्री दिलीप डान्डेकर की मुम्बई में मंगोलिया गणराज्य के अवैतनिक कौंसल के रूप में नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से मान्यता दे दी है।

श्री दिलीप डान्डेकर के कौंसली क्षेत्राधिकार में महाराष्ट्र राज्य होगा।

पी. पी. सरकार, प्रोटोकॉल उप-प्रमुख (एफ)

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 9 दिसम्बर 2005

सं. ए-12011/2/2005-स्था.--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 07-07-2005 के आदेश सं. 21/24/2005-सीएस I के अनुसरण में, राष्ट्रपति, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय (उर्वरक विभाग), रक्षा मंत्रालय और वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के अनुभाग अधिकारियों क्रमशः श्रीमती गरिमा सिंह (सीएसएल सं. 4636-ए), श्री नितिन कुमार (सीएसएल सं. 4797-ए) और श्री एस.एस. राणा (सीएसएल सं. 5152) को प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय में अवर सचिव के रूप में प्रत्येक के सामने उल्लिखित तारीख से तथा अगले आदेश होने तक 10,000-325-15,200 रुपये के वेतनमान में तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं।

क्र. सं.	नाम	सीएसएल सं.	तारीख
1.	श्रीमती गरिमा सिंह	4636-ए	14.07.2005 (पूर्वाह्न)
2.	श्री नितिन कुमार	4797-ए	14.07.2005 (पूर्वाह्न)
3.	श्री एस. एस. राणा	5152	29.07.2005 (पूर्वाह्न)

2. श्रीमती गरिमा सिंह और सर्वश्री नितिन कुमार और एस. एस. राणा की तदर्थ आधार पर उक्त नियुक्तियां निम्नलिखित शर्तों के अधीन हैं :--

(क) तदर्थ आधार पर पदोन्नति से इस ग्रेड में अनिश्चितकाल तक बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में सम्मिलित किए जाने अथवा केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I (अवर सचिव) में वरीयता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं मिलेगा;

(ख) तदर्थ नियुक्ति को किसी भी समय बिना कोई कारण बताए समाप्त किया जा सकता है।

एस. पी. त्रिपाठी, उप सचिव

दिनांक 13 दिसम्बर 2005

सं. ए-12011/2/2005-स्था.--वर्ष 1995, 1996 और 1997 के लिए चयन सूची से संबंधित कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 15 सितम्बर, 2005 के कार्यालय ज्ञापन सं. 4/10/2005-एस.एस.आई.-I (i) में निहित आदेशों के अनुसार, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के चयन ग्रेड के लिए 1997 की चयन सूची में शामिल किए जाने के फलस्वरूप राष्ट्रपति, प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय के समूह-क अधिकारी श्री एम. सी. अरोड़ा को 1.07.1997 से आगामी आदेशों तक नियमित आधार पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा के चयन ग्रेड में (उप सचिव) नियुक्त करते हैं।

2. केन्द्रीय सचिवालय सेवा के चयन ग्रेड में उनकी परस्पर वरीयता चयन ग्रेड में उनकी नियुक्ति की वास्तविक तारीख का ध्यान रखे बिना उनकी अलग-अलग चयन सूचियों में दिए गए क्रमानुसार होगी।

एस. पी. त्रिपाठी, उप सचिव

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 7 फरवरी 2006

सं. 3/28/03-मुद्रा-III--राष्ट्रपति, श्री बी. के. पाठक, उप महाप्रबंधक, भारतीय प्रतिभूति मुद्रणालय, नासिक रोड, को प्रतिभूति कागज कारखाना, होशंगाबाद में 18,400-500-22,400/- रुपये के वेतनमान में नियमित आधार पर दिनांक 10 दिसम्बर, 2005 (पूर्वाह्न) से तथा आगामी आदेश तक महा प्रबंधक (समूह 'क' राजपत्रित) नियुक्त करते हैं।

नवीन के. चौधरी, उप सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 6 फरवरी 2006

सं. ए-12011/9/2004-प्रशा. II--राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 31.1.2006 के आदेश सं.-4/13/2005-सीएस-I के अनुसरण में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के सीएसएस संवर्ग के अवर सचिव श्री लक्ष्मी चन्द मेहरा को आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय में 12,000-375-16,500/- रुपये के वेतनमान में तदर्थ आधार पर दिनांक 03 फरवरी, 2006 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक उप सचिव नियुक्त करते हैं।

2. श्री लक्ष्मी चन्द मेहरा की इस तदर्थ प्रोन्नति से उन्हें अनिश्चितकाल तक सीएसएस के चयन ग्रेड (उप सचिव) में बने रहने का या नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में उनका नाम शामिल किए जाने का या ग्रेड में वरिष्ठता का दावा पेश करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

3. इस तदर्थ नियुक्ति को किसी भी समय बिना कोई कारण बताए समाप्त किया जा सकता है।

बी. रामकुमार, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 10 फरवरी 2006

सं. ए-19011/6/2006-प्रशा. II--राष्ट्रपति, श्री कुमार संजय कृष्णा, भा.प्र.से. (एएम: 85) को आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय में दिनांक 07 फरवरी, 2006 के पूर्वाह्न से पांच वर्ष के उनके केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति कार्यकाल की शेष अवधि के लिए अर्थात् 15.08.2009 तक अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, संयुक्त सचिव नियुक्त करते हैं।

सुबोध कुमार घिल्डियाल, अवर सचिव

(बैंकिंग प्रभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 6 फरवरी 2006

सं. ए-12026/2/2005-डीआरटी--बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं को शोध ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 (1993 का 51) की धारा 11 के साथ पठित धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा न्यायमूर्ति एस. एस. पारकर, न्यायाधीश (सेवानिवृत्त), मुम्बई उच्च न्यायालय, को 2 फरवरी, 2006 (पूर्वाह्न) से पांच वर्ष की अवधि के लिए या उनके 65 वर्ष की आयु होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, मुम्बई में अध्यक्ष के पद पर नियुक्त करती है।

आर. के. शर्मा, उप सचिव

(व्यय विभाग)

कार्यालय, महालेखा नियंत्रक

नई दिल्ली-110003, दिनांक 1 फरवरी 2006

सं. ए-31013/1/2005/गुप ए/120-43--राष्ट्रपति, भारतीय सिविल सेवा के 1969 बैच के अधिकारी श्री एस. डब्ल्यू. ओक को वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग में 26,000/- रु. (नियत) के वेतनमान में 1 फरवरी, 2006 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों के होने तक महालेखा नियंत्रक के रूप में नियुक्त करते हैं।

रेनू सी. देशपाण्डे, उप महालेखा नियंत्रक

(बिनिवेश विभाग)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 6 फरवरी 2006

सं. 9/6/2005-प्रशा.--इस विभाग की दिनांक 19 जुलाई, 2005 की अधिसूचना सं. 9/6/2005-प्रशा. के अनुक्रम में, राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13 दिसम्बर, 2005 के का. ज्ञा. सं. 5/16/2003-सीएस-II के निबंधनों के अनुसार और व्यय विभाग

(संवर्ग प्रशासन अनुभाग) के दिनांक 04.01.2006 के का. ज्ञा. सं. ए-32022/1/2004-सीएस के अनुसरण में, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के निजी सचिव श्री एम.एस. शर्मा की प्रधान निजी सचिव के पद पर 10,000-325-15,200 रुपये के वेतनमान में तदर्थ आधार पर नियुक्ति को 01.01.2006 से 30.06.2006 तक 6 माह की अवधि के लिए अथवा नियमित अधिकारी के उपलब्ध होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, आगे जारी रखने के लिए सहमत हैं।

2. दिनांक 30.05.2005 की समसंख्यक अधिसूचना में यथा-उल्लेखित इस तदर्थ नियुक्ति की अन्य निबंधन और शर्तें अपरिवर्तनीय रहेंगी।

एस. के. शर्मा, अवर सचिव

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

आर्थिक सलाहकार का कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 30 जनवरी 2006

सं. ए.12012/1/2005-आ.स. (प्रशा.1)--राष्ट्रपति, भारतीय आर्थिक सेवा के गैर कार्यकारी चयन ग्रेड अधिकारी डा. एस. के. मुखर्जी को आर्थिक सलाहकार के कार्यालय, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में दिनांक 14.12.2005 (पूर्वाह्न) से अपर आर्थिक सलाहकार के पद पर 14,300-400-18,300/- रुपये के वेतनमान में नियुक्त करते हैं।

समरेन्द्र साहू, अपर आर्थिक सलाहकार

सं. ए. 22012/1/2005-आ.स. (प्रशा.1)--कुमारी दिव्या परमार, भारतीय आर्थिक सेवा के परिवीक्षक (प्रोबेशनर) ने आर्थिक विकास संस्थान (इन्स्टीट्यूट ऑफ इकनोमिक ग्रोथ) में अपनी परिवीक्षक प्रशिक्षण की समाप्ति के बाद दिनांक 27.01.2006 (पूर्वाह्न) को इस कार्यालय में सहायक निदेशक (भारतीय आर्थिक सेवा के ग्रेड-4) पद पर 8,000-275-13,500/- रुपये के वेतनमान में कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

समरेन्द्र साहू, अपर आर्थिक सलाहकार

दिनांक 2 फरवरी 2006

सं. ए.-22012/1/2005-आ.स. (प्रशा.1)--भारतीय आर्थिक सेवा के ग्रेड-4 पद पर पदोन्नति होने पर, श्री सन्यासी प्रधान ने आर्थिक सलाहकार के कार्यालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में सहायक निदेशक (भारतीय आर्थिक सेवा के ग्रेड-4) पद पर 8,000-275-13,500/- रुपये के वेतनमान में दिनांक 31.01.2006 (अपराह्न) को कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

समरेन्द्र साहू, अपर आर्थिक सलाहकार

## रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(रसायन और पेट्रो रसायन विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 31 जनवरी 2006

सं. ए.19011/5/2002-स्था.--राष्ट्रपति, श्री कैलाश नाथ, इस विभाग के एक नियमित उप औद्योगिक सलाहकार को 5 जनवरी, 2006 से 12,000-375-16,500/- रुपये के वेतनमान में आनुवंशिक लाभों के साथ संयुक्त औद्योगिक सलाहकार नियुक्त करते हैं।

आर. पी. वशिष्ठ, अवर सचिव

## पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 2 फरवरी 2006

सं. 17013/17/2005-भा.व. सेवा-II--भारतीय वन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली 1966 के विनियम 7 के उपनियम (3) में निहित उपबंधों का प्रयोग करते हुए वर्ष 2005 के लिए चयन सूची तैयार करने के लिए 11 नवम्बर, 2005 को चयन समिति की बैठक आयोजित की गई थी। संघ लोक सेवा आयोग ने उक्त बैठक में तैयार की गई वर्ष 2005 की चयन सूची को अब अनुमोदित कर दिया है जिसमें 1 जनवरी, 2005 को भा. व. सेवा संवर्ग के सिविक संवर्ग में उपलब्ध दो पदोन्नति कोट रिक्रियों को भरने के लिए सिविक के राज्य वन सेवा के निम्नलिखित सदस्यों के नाम शामिल हैं :-

क्र. सं.	नाम	जन्म तिथि
1.	श्री तोपधन राय	20.08.1957
2.	श्री सी. एस. प्रधान	24.02.1956

अशोक कुमार, अवर सचिव

## स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 30 जनवरी 2006

सं. ए. 32013/8/2005-स्थापना-1--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17 जनवरी, 2006 के आदेश संख्या 21/24/2006 के तहत केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-1 (अवर सचिव) में प्रोन्नति हो जाने के परिणामस्वरूप जल संसाधन मंत्रालय संवर्ग के अनुभाग अधिकारी डा. अनिल कुमार को राष्ट्रपति, 19 जनवरी, 2006 पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में पूर्णतः तदर्थ आधार पर अवर सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं। तदर्थ प्रोन्नति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :-

1. तदर्थ प्रोन्नति अनिश्चितकाल तक जारी रहने या नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल होने या ग्रेड-1 में वरिष्ठता का दावा करने के लिए कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

2. तदर्थ नियुक्ति बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त की जा सकती है।

पी. जी. कलाधरण, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 13 फरवरी 2006

सं. ए.-35014/26/2003-सी.एच.एस.-5--राष्ट्रपति, गुजरात सरकार की चिकित्सा अधिकारी डा. (श्रीमती) रजीका अग्रवाल का दिनांक 6.9.2005 के पूर्वाह्न से आगामी तीन वर्ष की अवधि के लिए केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत 10,000--15,200/- रुपये के वेतनमान में प्रतिनियुक्ति के आधार पर वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं। डा. श्रीमती रजीका अग्रवाल को इसी तारीख से केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना दिल्ली के अधीन तैनात किया जाता है।

पी. के. चक्रवर्ती, अवर सचिव

आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी  
(आयुष) विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 27 जनवरी 2006

सं. ए.-22012/1/99-आई.एस.एम.-(ई-II)--राष्ट्रपति, आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में 18,400-500-22,400/- रुपये के वेतनमान में नवसर्जित पद पर संयुक्त सचिव के रूप में भारत प्रशासन सेवा (जम्मू व कश्मीर : 76) के अधिकारी श्री वर्गीज सैम्युअल को 27 जनवरी, 2006 (पूर्वाह्न) से पद के बने रहने की अवधि या 5 वर्षों की अवधि या अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

अंशुमन शर्मा, अवर सचिव

## कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 17 जनवरी 2006

सं. 29-2/2005-पी.पी.-II--राष्ट्रपति, पादप संरक्षण संगरोध एवं भण्डारण निदेशालय के अधीन उप निदेशक (रसायन विज्ञान) डा. हरी प्रसाद को पदोन्नति के आधार पर 16 दिसम्बर, 2005 की पूर्वाह्न से इसी निदेशालय में 12,000--16,000/- रुपये के वेतनमान में संयुक्त निदेशक (रसायन विज्ञान) के पद पर नियुक्त करते हैं।

सतवंत सिंह, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 18 जनवरी 2006

सं. 12022/7/2002-स्थापना-I--अनुभाग अधिकारी ग्रेड की सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा, 2003 उत्तीर्ण होने और केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सी. एस. एस.) के अनुभाग अधिकारी ग्रेड की चयन सूची में नाम शामिल किये जाने के फलस्वरूप राष्ट्रपति, श्री सुनील कुमार (रैंक नं. 216), नियमित सहायक (सी.एस.एस.) को 9.12.2005 के अपराह्न से कृषि एवं सहकारिता विभाग में 6,500-200-10,500/- रुपये के वेतनमान में (समूह "ख" राजपत्रित) अनुभाग अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. यह नियुक्ति माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका (सी) सं. 13245-60/2005 श्री कैलाशचन्द्र एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य के मामले में आने वाले अंतिम निर्णय के अधीन होगी।

पी. विजयकुमार, अवर सचिव

दिनांक 27 जनवरी 2006

सं. 19011/407/2002-स्था.-II/V (वाल्थूम-II)--सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से डा. टी. आई. मैथ्यूकुट्टी, नारियल विकास बोर्ड में एक नियमित उप निदेशक तथा वर्तमान में कृषि एवं सहकारिता विभाग में प्रतिनियुक्ति के आधार पर 14,300-400-18,300/- रुपये के वेतनमान में अपर आयुक्त (विस्तार) के पद पर कार्यरत, को 27.1.2006 (अपराह) से कार्यमुक्त किया जाता है।

2. डा. टी. आई. मैथ्यूकुट्टी को निर्देश दिया जाता है कि वे अपनी अगली पोस्टिंग के लिये सचिव, नारियल विकास बोर्ड, कृषि मंत्रालय, कोच्चि-682011 (केरल) को रिपोर्ट करें।

पी. विजयकुमार, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 31 जनवरी 2006

सं. ए.-19012/8/2006-ई.ए.--राष्ट्रपति, श्री के. एस. कलसुआ, भारतीय आर्थिक सेवा (आई.ई.एस.) के कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (जेएजी) अधिकारी को कृषि एवं सहकारिता विभाग, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय में दिनांक 28 दिसम्बर, 2005 के पूर्वाह्न से 12,000-375-16,500/- रुपये के वेतनमान में उप-आर्थिक सलाहकार के पद पर नियुक्त करते हैं।

राजकुमार, अवर सचिव

दिनांक 2 फरवरी 2006

सं. ए.-19012/4/2006-ई.ए.--राष्ट्रपति, श्री जे. सी. प्रसाद, भारतीय आर्थिक सेवा (आई.ई.एस.) के कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (जेएजी) अधिकारी को कृषि एवं सहकारिता विभाग, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय में दिनांक 16 दिसम्बर, 2005 के पूर्वाह्न से 12,000-375-16,500/- रुपये के वेतनमान में उप-आर्थिक सलाहकार के पद पर नियुक्त करते हैं।

राजकुमार, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 10 फरवरी 2006

सं. 5 (3)/04-आई.एन.एम. (ए)--राष्ट्रपति, श्री आर. बी. शर्मा, वरिष्ठ उर्वरक निरीक्षक (समूह 'ख' अराजपत्रित) को कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग के अन्तर्गत केन्द्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण एवं प्रशिक्षण संस्थान, फरीदाबाद में दिनांक 17.11.2005 से 17.1.2006 तक 8,000--13,500/- रुपये के वेतनमान में तदर्थ आधार पर सहायक निदेशक (सा. के. सेवा, समूह 'क') के पद पर नियुक्त करते हैं।

एस. के. गौतम, अवर सचिव

ग्रामीण विकास मंत्रालय

(भूमि संसाधन विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 6 फरवरी 2006

सं. ए.-12023/3/2005-प्रशासन--सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से कृषि एवं सहकारिता विभाग में कार्यरत श्री सुनील कुमार, कनिष्ठ तकनीकी सहायक को भूमि संसाधन विभाग में 1 फरवरी, 2006 के पूर्वाह्न से अगले आदेश होने तक तीन वर्षों की अवधि के लिए 6,500-200-10,500/- रुपये के वेतनमान में तकनीकी अधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्त किया जाता है।

एच. सी. एस. रावत, अवर सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 17 जनवरी 2006

सं. 12024/3/2005-स्था.-III--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 16.8.2005 के कार्यालय ज्ञापन सं. 5/10/2005-सी.एस.-II के आधार पर राष्ट्रपति, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग के सी.एस.एस.एस. कैंडर के श्री राजकुमार-II आशुलिपिक, ग्रेड 'सी' को नियमित आधार पर (चयन सूची 2002) 16.1.2006 से 6,500--10,500/- रुपये के वेतनमान में माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग में आशुलिपिक ग्रेड 'ए' और 'बी' (विलयित) (निजी सचिव) के रूप में नियुक्त करते हैं।

एस. एन. गुप्ता, अवर सचिव

सं. 12024/3/2005-स्था.-III--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 16.8.2005 के कार्यालय ज्ञापन सं. 5/10/2005-सी.एस.-II के आधार पर राष्ट्रपति, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग के सी.एस.एस.एस. कैंडर की सुश्री प्रेमिला मारवाह, आशुलिपिक, ग्रेड 'सी' को नियमित आधार पर (चयन सूची 2003) 16.1.2006 से 6,500--10,500/- रुपये के वेतनमान में माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग में आशुलिपिक ग्रेड 'ए' और 'बी' (विलयित) (निजी सचिव) के रूप में नियुक्त करते हैं।

एस. एन. गुप्ता, अवर सचिव

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)

राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र

नई दिल्ली-110003, दिनांक 25 जनवरी 2006

सं. ए-39013/1/2005-प्रशासन-I--राष्ट्रपति एतद्वारा श्री मृदुल मोहतरा, (कर्मचारी कोड सं. 3005), का राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र मुख्यालय, नई दिल्ली, में वैज्ञानिक-ई के पद से त्यागपत्र दिनांक 25 जनवरी, 2006 की अपराह्न से स्वीकार करते हैं और उन्हें दिनांक 25 जनवरी, 2006 (अपराह्न) से कार्यमुक्त किया जाता है।

आर. एम. नायर, उपनिदेशक (कार्मिक व स्थापना-I)

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 1 फरवरी 2006

सं. ई. आर. बी.-I/2005/3/1--श्री प्रताप सिंह, सहायक, रेलवे बोर्ड को 4.1.2006 के पूर्वाह्न से 6,500--10,500/- रुपये (आर.एस.आर. पी.) के वेतनमान में तदर्थ आधार पर रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है।

एम. के. अग्रवाल, सचिव, रेलवे बोर्ड

दिनांक 6 फरवरी 2006

सं. ई. आर. बी.-I/2004/3/11--रेलवे बोर्ड के निम्नलिखित हिन्दी सहायकों (वेतनमान 5,500--9,000/- रु.) को 24.1.2006 के पूर्वाह्न से नियमित आधार पर अनुभाग अधिकारी (हिन्दी), रेलवे बोर्ड (वेतनमान 6,500--10,500/- रु.) के रूप में पदोन्नत किया जाता है।

1. श्रीमती किरण बाला घई
2. श्री अनूप सिंह बिष्ट
3. श्रीमती रवि नंदिनी शर्मा
4. श्रीमती श्रद्धा करंजगांवकर

एम. के. अग्रवाल, सचिव, रेलवे बोर्ड

दिनांक 7 फरवरी 2006

सं. ई. (जी.पी.) 2003/1/59--राष्ट्रपति महोदय, दक्षिण रेलवे के कार्मिक विभाग के ग्रुप-बी अधिकारी श्री के. प्रभाकर राव की 13.12.2005 से भारतीय रेल कार्मिक सेवा (आई.आर.पी.एस.) के कनिष्ठ वेतनमान में, वर्ष 2004-05 के पैल में, मूल रूप से नियुक्ति किए जाने का अनुमोदन करते हैं।

एम. के. अग्रवाल, सचिव, रेलवे बोर्ड

दिनांक 10 फरवरी 2006

सं. ई. (जी.पी.) 2002/1/49--राष्ट्रपति महोदय, मध्य रेलवे के सिविल इंजीनियरी विभाग के (पश्चिम मध्य रेलवे में कार्यरत) ग्रुप बी अधिकारी श्री के. के. द्विवेदी की 17.2.2005 से भारतीय रेल इंजीनियरी सेवा (आई.आर.एस.ई.) के कनिष्ठ वेतनमान में वर्ष 2003-04 के पैल में, मूल रूप से नियुक्ति किए जाने का अनुमोदन करते हैं।

2. श्री के. के. द्विवेदी, 1.10.2005 से ही कनिष्ठ वेतनमान में आर्थिक लाभ के पात्र होंगे।

एम. के. अग्रवाल, सचिव, रेलवे बोर्ड

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 7 फरवरी 2006

सं. ए.-20012/863/2001-स्था. 1--राष्ट्रपति, भारतीय आर्थिक सेवा के ग्रेड-IV (अवर समयमान) अधिकारी, श्री शिव सिंह मीना को दिनांक

18.01.2006 (अपराह्न) से 8,000-275-13,500/- रुपये के वेतनमान में पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में सहायक निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

वीरेन्द्र सिंह, अवर सचिव

विद्युत मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 8 फरवरी 2006

सं. 1-ए./2006 (मि.सं.ए.-38012/1/2005-प्रशा. एक)--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर, श्री आर. सी. बंसल जोकि केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरिंग (समूह-क) सेवा में निदेशक के पद पर कार्यरत थे, भारत सरकार की सेवा से 31 दिसम्बर, 2005 के अपराह्न से सेवा निवृत्त हो गए हैं।

आर. सी. अरोड़ा, अवर सचिव

सं. 1-ए./2006 (मि.सं.ए.-38012/1/2005-प्रशा. एक)--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर, श्री के. आर. जैन जोकि केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरिंग (समूह-क) सेवा में उप निदेशक के पद पर कार्यरत थे, भारत सरकार की सेवा से 31 दिसम्बर, 2005 के अपराह्न से सेवा निवृत्त हो गए हैं।

आर. सी. अरोड़ा, अवर सचिव

सं. 3-2006 (मि.सं.ए.-38012/1/2005-प्रशा. एक)--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर, श्री एस. के. भाटिया जोकि केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरिंग (समूह-क) सेवा में उप निदेशक के पद पर कार्यरत थे, भारत सरकार की सेवा से 31 दिसम्बर, 2005 के अपराह्न से सेवा निवृत्त हो गए हैं।

आर. सी. अरोड़ा, अवर सचिव

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 2 फरवरी 2006

सं. 6/376/06-प्रशा.-I.--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 30.01.2006 के आदेश सं. 22/1/2006-ईओ (एस.एम.1) के अनुसरण में श्री वी. सुब्रामणियन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (डब्ल्यू बी-71) ने दिनांक 01.02.2006 के पूर्वाह्न से सचिव, अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय का पदभार ग्रहण कर लिया है।

एस. सी. सरकार, अवर सचिव

जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 7 मार्च 2006

सं. 1/2006, (फाइल सं.-20/28/2003-प्रशा.)--राष्ट्रपति, डा. पी. के. महरोत्रा, आई. पी. एण्ड टी. ए. तथा एफ. एस. को दिनांक 01.02.2006 के अपराह्न से वेतनमान 14,300--18,300/- रुपये में केन्द्रीय

प्रतिनियुक्ति पर निदेशक (ब्रह्मपुत्र) के पद पर जल संसाधन मंत्रालय में पांच वर्ष के लिए नियुक्त करते हैं।

नरेश कुमार गुप्ता, अवर सचिव

शहरी विकास मंत्रालय

नई दिल्ली-110011, दिनांक 10 फरवरी 2006

संकल्प

सं. ई.-11015/1/99-हिन्दी--शहरी विकास मंत्रालय तथा शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय के लिए संयुक्त हिन्दी सलाहकार समिति के गठन संबंधी दिनांक 19 मई, 2005 के इस मंत्रालय के सम संख्यक संकल्प में आंशिक संशोधन करते हुए भारत सरकार ने शहरी विकास राज्य मंत्री को समिति का उपाध्यक्ष मनोनीति करने का निर्णय

लिया है। अतः क्रम सं. 2 के बाद निम्नलिखित प्रविष्टि शामिल की गयी है :--

“2क. शहरी विकास राज्य मंत्री  
अन्य शर्तें वही रहेंगी।

उपाध्यक्ष”

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, योजना आयोग, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

एम. राजामणि, संयुक्त सचिव

## PRIME MINISTER'S OFFICE

New Delhi-110 011, the 6th February 2006

No. A-22012/01/2006-PMA—Consequent upon his selection for appointment as joint Secretary in the Department of Economic Affairs, Shri Kumar Sanjay Krishna, IAS (AM : 85) is relieved of his duties as Director in the Prime Minister's Office with effect from the afternoon of 6th February, 2006.

P. K. ROY, Under Secy.

The 8th February 2006

No. A-22017/4/2004-PMA—The President is pleased to appoint Shri Jaya Prakash, Upper Division Clerk of CSCS cadre of Ministry of Home Affairs as 1st Personal Assistant in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500 on the personal staff of Shri Prithviraj Chavan, Minister of State in the Prime Minister's Office with effect from the forenoon of 1st June, 2004.

2. The appointment of Shri Jaya Prakash on the personal staff of MoS(PMO) is co-terminous with the tenure of and at the discretion of the MoS(PMO).

P. K. ROY, Under Secy.

## RAJYA SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 6th February 2006

No. RS/1604/Estt(P)—Shri Pratap Chandra Paikray, Deputy Secretary in the Rajya Sabha Secretariat, expired on 25th January, 2006.

P. R. GUHA ROY, Director

The 10th February 2006

No. RS/6(iv)/2006/8-Per1.—Consequent to the re-election of Dr. Karan Singh to the Rajya Sabha and his re-nomination as Member and Chairman of the Committee on Ethics w.e.f. 28th January, 2006, Shri Mohan Singh Sen has been re-appointed as Senior Private Secretary on co-terminus basis in his personal staff w.e.f. the forenoon of 28th January, 2006.

2. The above-said appointment is at the discretion of the present Chairman of the Committee on Ethics and will be co-terminus with his term of office.

P. R. GUHA ROY, Director

The 13th February 2006

No. RS/6(iv)/2006/9-Per1.—Consequent to demission of office of the Chairman of the Committee on Human Resource Development by Shri Vayalar Ravi on his appointment as Minister of Overseas Indian Affairs w.e.f.

29th January, 2006, the services of Shri Suresh Chand Jain, Senior Private Secretary on co-terminus basis in his personal staff stand terminated w.e.f. the afternoon of 13th February, 2006 after granting him a winding up period of 15 days w.e.f. 29th January, 2006.

P. R. GUHA ROY, Director

## PLANNING COMMISSION

New Delhi, the 23rd January 2006

No. A-44011/4/2000-Adm. I—In pursuance of Ministry of Statistics & Programme Implementation's Office Order No. 12016/3/NFSG/05-06/2005-ISS dated 12.1.2006, Smt. Ratna Anjan Jena, Junior Administrative Grade Officer of ISS working as Deputy Adviser in the Planning Commission is granted Non-Functional Selection Grade of the Service in the scale of pay of Rs. 14,300-400-18,300 with effect from 05-01-2006.

2. Consequent on being placed in NFSG of ISS, she is designated as Director by upgrading the post of Deputy Adviser as personal to her.

K. K. CHHABRA, Under Secy.

The 1st February 2006

No. F. 6(1962)/2006-Adm.I—In pursuance of Deptt. of Economic Affairs' Order No. 13016/2/2005-IES dated 13.1.2006, Shri Ambrish Kumar, NFSG officer of IES has assumed charge as Director in the Planning Commission in the scale of pay of Rs. 14,300-400-18,300 w.e.f. 30.01.2006 (FN).

K. K. CHHABRA, Under Secy.

New Delhi, the 30th January 2006

No. A-43014/01/2006-Admn. II—Consequent upon their promotion to Grade IV of IES and posting as Research Officer in the Planning Commission vide Department of Economic Affairs order No. 11016/3/2004-IES dated 18.1.2006, the following Officers have assumed charge as Research Officer in the Planning Commission in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500 with effect from the dates mentioned against each:—

Sl. No.	Name	Date of assuming charge
1.	Shri Narain Singh	19.01.2006(FN)
2.	Shri B. B. Sharma	19.01.2006(FN)
3.	Shri Anil Kumar Bhatia	19.01.2006(AN)
4.	Shri B. L. Meena	25.01.2006(FN)
5.	Shri Ganga Ram	25.01.2006(FN)

R. K. PARMAR, Under Secy.



The 31st January 2006

No. A. 20012/3/89-Admn. II—Consequent upon his promotion to Grade IV of Indian Economic Service in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500 on regular basis and posting as Assistant Director in the Office of Economic Adviser, Department of Industrial Policy and Promotion (DIPP) vide Department of Economic Affairs Order No. A. 11016/3/2004-IES dated 18.01.2006, Shri Sanyasi Pradhan, Economic Officer, Planning Commission is relieved of his duties in the Planning Commission and his services are placed at the disposal of DIPP w.e.f. the afternoon of 31.01.2006.

R. K. PARMAR, Under Secy.

The 1st February 2006

No. A. 12025/2/2002-Admn. II—In continuation of Planning Commission Notification of even number dated 11.07.2005, the term of ad-hoc appointment of Smt. Vandana Sharma as Senior Research Officer (Water Supply) is extended upto 30.06.2006, or till regular incumbent joins, or until further orders, whichever is the earliest.

2. This ad-hoc appointment will not bestow upon Smt. Vandana Sharma any right to claim regular appointment to the post of Senior Research Officer nor shall the period of ad-hoc appointment count for the purpose of seniority in the grade of Senior Research Officer.

R. K. PARMAR, Under Secy.

#### MINISTRY OF STATISTICS & PROGRAMME IMPLEMENTATION

#### NATIONAL SAMPLE SURVEY ORGANISATION

#### DATA PROCESSING DIVISION HEADQUARTERS

Kolkata-700 108, the 6th February 2006

No. A-38011/1/05-CSW—Shri Haripada Das, Accounts-cum-Admn. Officer, Data Processing Division Headquarters, National Sample Survey Organisation, Kolkata, retired from Government Service on attaining the age of superannuation with effect from the afternoon of 31st December, 2005.

S. K. DAS, Director & Head of Office

#### MINISTRY OF LAW AND JUSTICE (LEGISLATIVE DEPARTMENT)

New Delhi, the 2nd February 2006

No. A. 32013/2/2005-Admn. I (L.D.)—On the recommendation of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Smt. Lakhimee Bora, Assistant Legislative Counsel (Assamese), presently officiating as Deputy Legislative Counsel (Regional Language) on ad-hoc basis in the Official Languages Wing of the Legislative Department, Ministry of Law and Justice to officiate as Deputy Legislative Counsel (Regional

Language) in the said Wing of this Department on regular basis with effect from the forenoon of 31st January, 2006 and until further orders.

V. RAVINDRAN, Under Secy.

New Delhi, the 8th February 2006

No. A. 38011/2/91-Admn. I (L.D.)—On attaining the age of superannuation Shri A. K. Sharda, Superintendent (Printing) on ad hoc basis in the Official Languages Wing of the Legislative Department, Ministry of Law and Justice retired from Government service with effect from the afternoon of 31st January, 2006.

KIRAN PURI, Deputy Secy.

#### (DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS)

New Delhi, the 31st January 2006

No. A-32015/8/2005-Admn. IV(LA)—Pursuant to the Department of Personnel & Training's O.M. No. 5/21/2005-CS-II dated 21.12.2005 and consequent upon their joining, the President is pleased to appoint the following officers of CSSS cadre as Principal Private Secretary on ad-hoc basis in the scale of Rs. 10,000-15,200 in the CSSS cadre of Ministry of Law & Justice, Department of Legal Affairs w.e.f. the date mentioned against them to 30.06.2006 or till the post is filled up on regular basis or until further orders whichever is earlier:—

S. No.	Name & Designation	Cadre to which belongs	Date of joining in the Deptt. of Legal Affairs
1.	Shri S. C. Batra PPS (in-situ)	Ministry of Urban Development	20.01.2006 (F/N)
2.	Shri Vijay Kumar Sharma, Private Secretary	Union Public Service Commission	30.01.2006 (F/N)

2. The above said promotion is made purely on ad-hoc basis and will not confer any right on them to continue in the grade indefinitely or to claim seniority in the grade of PPS for a period up to 30.06.2006.

YASWANT SINGH, Dy. Secy.

#### (DEPARTMENT OF JUSTICE)

New Delhi, the 3rd January 2006

No. K. 13013/2/2005. US. I—In exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 224 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint of : (i) Shri Makena Eswara Narasimha Patrudu, (ii) Shri Desaraju

Apparao and (iii) Shri Grandhi Bhavani Prasad to be Additional Judges of the Andhra Pradesh High Court, in that order of seniority for a period of two years with effect from the date they assume charge of their respective office.

Dr. P. K. SETH, Joint Secy.

The 4th January 2006

No. K. 11017/11/2005. US. II—In exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 222, read with Article 222(1A) of the Constitution of India in its application to Jammu and Kashmir, the President, after consultation with the Governor of Jammu and Kashmir and the Chief Justice of India, is pleased to transfer Shri Justice Rattan Chand Gandhi, Judge of the High Court of Jammu and Kashmir as a Judge of the Rajasthan High Court and to direct him to assume charge of his office in the Rajasthan High Court on or before 18th January, 2006.

Dr. P. K. SETH, Joint Secy.

No. K. 11017/20/2005-US. II—In exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 222 of the Constitution of India, the President, after consultation with the Chief Justice of India, is pleased to transfer Shri Justice Rajeev Gupta, Chief Justice of the Kerala High Court as Chief Justice of the Uttarakhand High Court and to direct him to assume charge of his office in the Uttarakhand High Court on or before 18th January, 2006.

Dr. P. K. SETH, Joint Secy.

No. K. 13021/1/2005. US. I—In exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 224 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint of : (i) Shri Adi Subhash Bashetti, (ii) Shri Ajikuttira Somaiah Bopanna, (iii) Shri Narayanappa Ananda and (iv) Shri Jawad Rahim, to be Additional Judges of the Karnataka High Court, in that order of seniority, for a period of two years, with effect from the date they assume charge of their respective office.

Dr. P. K. SETH, Joint Secy.

#### MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 10th February 2006

No. I-14011/19/2005-IPS.I(I).—In exercise of the provisions contained in sub-regulation (3) of Regulation 7 of the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the Union Public Service Commission has on 08-02-2006, approved the year-wise Select Lists of 2004 and 2005, prepared by the Selection Committee in its meeting held on 01-08-2005, containing the names of three and thirteen State Police Service Officers of Uttar Pradesh and two such officers who were the members of the State Police Service of erstwhile Uttar Pradesh and on bifurcation were allotted to the newly created State of Uttarakhand but are

continuing in the residuary State of Uttar Pradesh on the basis of interim orders of the Hon'ble Supreme Court of India, staying their allocation to the State of Uttarakhand, towards filling up three and thirteen substantive vacancies in the Uttar Pradesh Cadre of Indian Police Service during 2004 and 2005 respectively.

#### SELECT LIST—2004

Sl. No.	Name	Date of Birth
	(S/Shri)	
1.	Smt. Beena Bhukesh	02-01-1954
2.	Dinkar Sinha	15-01-1954
3.	Om Prakash Sagar	16-07-1955

#### SELECT LIST—2005

S. No.	Name	Date of Birth
	(S/Shri)	
01.	Rajesh Kumar Singh Rathore	23-10-1956
02.	Rajendra Prasad Chaturvedi	01-01-1955
03.	Maiya Deen Karanadhar	02-01-1955
04.*	Balbir Singh	15-04-1955
05.	Kripa Shankar Singh	25-06-1953
06.**	Navneet Kumar Rana	23-04-1956
07.	Prakash Tripathi	03-09-1953
08.	Vijay Kumar	03-03-1957
09.	Jitendra Pratap Singh	30-12-1956
09A.***	G. N. Goswami	08-06-1956
10.	Akramul Haq	16-07-1951
10A.***	Vijay Yadav	01-05-1957
11.	Gholar Pd. Kanaujia	01-10-1955
12.	Vinod Kumar Doharey	30-09-1956
13.	Krishna Mohan	03-09-1956

\* The officer whose name is indicated at serial number 4 above has since expired on 19/20-8-2005.

\*\* The name at Sl. No. 6 has been included in the list provisionally subject to his clearance in the disciplinary proceedings pending against him.

\*\*\* The names at Sl. No. 9A & 10A have been included in the List in addition to the normal size of the Select List as they have obtained interim stay from the Hon'ble Supreme Court against their allocation to the State of Uttarakhand. Their actual appointment to the Indian Police Service shall, therefore, depend upon the outcome of these cases and the vigilance clearance at the relevant point of time.

2. The recommendations of the Selection Committee shall be subject to the final outcome of the following cases :—

- (I) SLP No. 1642/2002 filed by State of Uttar Pradesh & Anr. Vs. Shri Dinkar Sinha.
- (II) WP No. 154 (S/B)/2005 filed by State of Uttar Pradesh & Ors. Vs. Shri O. P. Sagar.
- (III) SLP (Civil) No. 24221-24243/2003 filed by Shri Yogendra Yadav & Ors. Vs. State of Uttar Pradesh & Ors.
- (IV) WP No. 798 (S/B)/2004 and Claim Petition No. 412/2004 filed by Sugriv Giri Vs. State of Uttar Pradesh & Ors.
- (V) OA No.—/2005 filed by Shri D. K. Rai 7 Ors. Vs. Union of India & Ors. before the Hon'ble CAT, Lucknow Bench.

3. The recommendations of the Selection Committee in respect of S/Shri G. N. Goswami and Vijay Yadav, essentially allocated to Uttaranchal and whose names are included in the List of 2005 at serial number 9A and 10A, respectively, shall be subject to the final outcome of the cases pending before the Hon'ble Supreme Court of India regarding their allocation to Uttaranchal. Consequently, the inclusion of the names of the officers at serial number 12 and 13 above in the Select List of 2005 shall also be affected by the outcome of aforementioned cases, pending before the Hon'ble Supreme Court of India. The officers at serial number 12 and 13 will be shifted out of the Select List to make way for the officers at serial number 9A and 10A above, if the officers at serial number 9A and 10A are actually appointed to the Uttar Pradesh Cadre of Indian Police Service, in future, on the basis of the outcome of the cases pending before the Supreme Court of India, as referred above.

Y. P. DHINGRA, Under Secy.

No. I-14011/19/2005-IPS.I(II).—In exercise of the powers conferred by Sub-rule (1) of Rule 9 of the Indian Police Service (Recruitment) Rules, 1954, read with sub-regulation (1) of regulation 9 of the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the President is pleased to appoint the following members of Uttar Pradesh Police Service to the Indian Police Service on probation and to allocate them to the cadre of Uttar Pradesh under Sub-rule (1) of the Rule 5 of the Indian Police Service (Cadre) Rules, 1954. The appointments will take effect from the date of issue of this notification :—

#### SELECT LIST—2004

Sl. No.	Name	Date of Birth
	(S/Shri)	
1.	Smt. Beena Bhukesh	02-01-1954
2.	Dinkar Sinha	15-01-1954
3.	Om Prakash Sagar	16-07-1955

#### SELECT LIST—2005

Sl. No.	Name	Date of Birth
	(S/Shri)	
01.	Rajesh Kumar Singh Rathore	23-10-1956
02.	Rajendra Prasad Chaturvedi	01-01-1955
03.	Maiya Deen Karanadhar	02-01-1955
04.	Kripa Shankar Singh	25-06-1953
05.	Prakash Tripathi	03-09-1953
06.	Vijay Kumar	03-03-1957
07.	Jitendra Pratap Singh	30-12-1956
08.	Akramul Haq	16-07-1951
09.	Gholar Pd. Kanaujia	01-10-1955
10.	Vinod Kumar Doharey	30-09-1956
11.	Krishna Mohan	03-09-1956

2. The above appointments shall be subject to the final outcome of the following cases :—

- (I) SLP No. 1642/2002 filed by State of Uttar Pradesh & Anr. Vs. Shri Dinkar Sinha.
- (II) WP No. 154 (S/B)/2005 filed by State of Uttar Pradesh & Ors. Vs. Shri O. P. Sagar.
- (III) SLP (Civil) No. 24221-24243/2003 filed by Shri Yogendra Yadav & Ors. Vs. State of Uttar Pradesh & Ors.
- (IV) WP No. 798 (S/B)/2004 and Claim Petition No. 412/2004 filed by Sugriv Giri Vs. State of Uttar Pradesh & Ors.
- (V) OA No.—/2005 filed by Shri D. K. Rai & Ors. Vs. Union of India & Ors. before the Hon'ble CAT, Lucknow Bench.

3. The appointments of S/Shri Vinod Kumar Doharey and Krishna Mohan at serial number 10 and 11 above in the Select List of 2005 shall be affected by the outcome of the cases, pending before the Hon'ble Supreme Court of India relating to allocation to the State of Uttaranchal of S/Shri G. N. Goswami and Vijay Yadav, mentioned at serial number 9A and 10A in this Ministry's Notification number I-14011/19/2005-IPS-1(I) dated 10-02-2006. Consequently, the officers at serial number 10 and 11 will be shifted out of this notification to make way for the officers at serial number 9A and 10A in this Ministry's Notification number I-14011/19/2005-IPS-1(I) dated 10-02-2006, if these officers at serial number 9A and 10A are actually appointed to the Uttar Pradesh Cadre of Indian Police Service, in future, on the basis of the outcome of the cases pending before the Supreme Court of India, as referred above.

Y. P. DHINGRA, Under Secy.

New Delhi-1, the 13th February 2006

No. 14046/6/2006-UTS.I.—Shri J. Bagra, a member of Arunachal Pradesh-Goa-Mizoram-Union Territories Cadre of Indian Police Service (1991 Batch), expired on 8th October, 2005.

VIKRAM DEV DUTT, Dy. Secy.

New Delhi, the 13th February 2006

No. A-32013/01/2006-Ad.I.—The President is pleased to appoint the following Section Officers of Central Secretariat Service (CSS) to Grade-I (Under Secretary) in the Ministry of Home Affairs in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/- purely on ad-hoc basis with effect from the date mentioned against their names, until further orders :—

- |                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| 1. Shri Pritam Lal        | 18-01-2006 (FN) |
| 2. Smt. L. P. Shrivastava | 18-01-2006 (FN) |
| 3. Shri Balraj Singh      | 18-01-2006 (FN) |
| 4. Shri Arvind Mukherjee  | 30-01-2006 (FN) |

2. The ad-hoc promotion is subject to the following conditions :—

- (i) The ad-hoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Selection Grade.
- (ii) Ad-hoc appointments may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.

3. This issues in pursuance of Department of Personnel & Training's Order No. 21/24/2005-CS.I dated 17-01-2006.

J. B. SHARMA, Under Secy.

# MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES & PENSIONS

## (DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

New Delhi, the 6th February 2006

No. 13013/1/2003-AIS(I).—In exercise of the powers conferred by Sub-rule (1) of Rule 5 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954, the Central Government allocates the cadre officers mentioned in Column 2 of the table below who have been appointed to the Indian Administrative Service on the basis of the results of the Civil Services Examination, 2002 to the cadre mentioned against their names in Column 3 thereof :—

Sl. No.	Name of Cadre Officers	Cadre Allocated
1	2	3
	Sh./Shri	
1.	Ankur Garg	Manipur-Tripura
2.	Avinash Champawat	Nagaland
3.	Aswathy S.	Orissa
4.	Mayur Maheshwari	Uttar Pradesh

1	2	3
5.	Swati Sharma	AGMUT
6.	Kamal Kishor Yadav	Punjab
7.	Bhanu Prakash Yeturu	Rajasthan
8.	Lokesh Kumar Singh	Bihar
9.	Arun Roy V.	Tamil Nadu
10.	Siddharth Mahajan	Uttaranchal
11.	Amit Singla*	West Bengal
12.	Avantika Gautam	Assam-Meghalaya
13.	Bandana Preyashi	Bihar
14.	Amrita Soni*	Chhattisgarh
15.	Muthukrishnan Sankaranarayanan	Maharashtra
16.	Sandhya Bhullar	Gujarat
17.	Amit Kumar Agrawal	Haryana
18.	Ritu Singla*	Jammu & Kashmir
19.	Pooja Kulkarni*	Karnataka
20.	Rajesh Kumar Sharma	Jharkhand
21.	Sanjay Goel	Madhya Pradesh
22.	Anu George	Tamil Nadu
23.	Nandini Paliwal	AGMUT
24.	Ministhy S.	Uttar Pradesh
25.	Roopwant Singh	Gujarat
26.	Joshi Ajit Balaji	Haryana
27.	Saurabh Rao	Maharashtra
28.	Ritu Sain*	Manipur-Tripura
29.	Abhishek Chandra	Manipur-Tripura
30.	Rajat Agarwal	Punjab
31.	Pritam B. Yashvant	Rajasthan
32.	Kona Sasidhar	Andhra Pradesh
33.	Sumant Singh	Manipur-Tripura
34.	Krishna Kunal	Rajasthan
35.	Adusumilli V. Raja Mouli	Uttar Pradesh
36.	Vivek Pandey	AGMUT
37.	Sanjeev Kumar	Maharashtra
38.	Shaila Beevi A.	Maharashtra
39.	Jawalkar Dilipkumar Rajaram	Manipur-Tripura
40.	Sowjanya	Sikkim
41.	Ananda Kumar R.	Tamil Nadu
42.	Jawale Nitin Bhanudas	Orissa
43.	Niraj Kumar Pawan	Rajasthan
44.	Kurve Sachin Sharadchandra	Uttaranchal
45.	Solanki Pravinbhai Khodabhai	Gujarat
46.	Vikas Gothwal	Uttar Pradesh

1	2	3
47.	Sripriya Rengarajan	West Bengal
48.	Babu A.	Andhra Pradesh
49.	Pinky Jowel*	Tamil Nadu
50.	Nishant Warwade	Madhya Pradesh
51.	Jayant Narlikar	Assam-Meghalaya
52.	Anupam Kumar	Bihar
53.	Pardeshi Siddhartha Komal	Chhattisgarh
54.	Swaroop P.	Gujarat
55.	Sudha Devi M.	Himachal Pradesh
56.	Ajeet Kumar Sahu	Jammu & Kashmir
57.	Aboobacker Siddique P.	Jharkhand
58.	Padma Mahto	AGMUT
59.	Jaffer P. C.	Karnataka
60.	Rigzian Sampheal	Uttar Pradesh
61.	Patil Dnyaneshwar Shalchandra	Madhya Pradesh
62.	Lokesh Kumar Singh	Andhra Pradesh
63.	Jayashree S. Bhoj*	Uttar Pradesh
64.	Patibandla Ashok Babu	Assam-Meghalaya
65.	Yogita Rana	Andhra Pradesh
66.	Asangba Chuba AO	Bihar
67.	Kangale Reena Babasaheb	Chhattisgarh
68.	Prawin Kumar Toppo	Jharkhand
69.	Manoj Kumar Meena	Karnataka
70.	Rathan U. Kelkar	Kerala

\*(Note):—Amit Singla has been transferred to the cadre of AGMUT; Amrita Soni, Ritu Singla and Pinky Jowel have been transferred to the cadre of Uttar Pradesh; Pooja Kulkarni has been transferred to the cadre of Tamilnadu; Ritu Sain has been transferred to the cadre of Chhattisgarh; Jayashree S. Bhoj has been transferred to the cadre of Maharashtra.

K. K. SHARMA, Desk Officer

The 7th February 2006

No. 13013/2/2003-AIS(I)—Under Rule 6 of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954 the President is pleased to appoint the following candidates who competed successfully at the Civil Services Examination held in 2002 to the Indian Administrative Services, on probation with effect from the date shown against their names. The cadre allocation of these candidates will be notified in due course :—

Sr. No.	Name of Candidates	Date of Appointment
1	2	3
1.	Ankur Garg	1.9.2003 (FN)
2.	Avinash Champawat	1.9.2003 (FN)
3.	Aswathy S.	1.9.2003 (FN)
4.	Mayur Maheshwari	1.9.2003 (FN)
5.	Swati Sharma	1.9.2003 (FN)
6.	Kamal Kishor Yadav	1.9.2003 (FN)
7.	Bhanu Prakash Yeturu	1.9.2003 (FN)
8.	Lokesh Kumar Singh	1.9.2003 (AN)
9.	Arun Roy V.	1.9.2003 (FN)
10.	Siddharth Mahajan	1.9.2003 (FN)
11.	Amit Singla	1.9.2003 (FN)
12.	Avantika Gautam	1.9.2003 (FN)
13.	Bandana Preyashi	1.9.2003 (FN)
14.	Amrita Soni	1.9.2003 (FN)
15.	Muthukrishnan Sankaranarayanan	1.9.2003 (FN)
16.	Sandhya Bhullar	1.9.2003 (FN)
17.	Amit Kumar Agrawal	1.9.2003 (FN)
18.	Ritu Singla	1.9.2003 (FN)
19.	Pooja Kulkarni	1.9.2003 (FN)
20.	Rajesh Kumar Sharma	1.9.2003 (FN)
21.	Sanjay Goel	1.9.2003 (FN)
22.	Anu George	1.9.2003 (FN)
23.	Nandini Paliwal	1.9.2003 (FN)
24.	Ministhy S	1.9.2003 (FN)
25.	Roopwant Singh	1.9.2003 (FN)
26.	Joshi Ajit Balaji	1.9.2003 (FN)
27.	Saurabh Rao	1.9.2003 (AN)
28.	Ritu Sain	1.9.2003 (FN)
29.	Abhishek Chandra	1.9.2003 (FN)
30.	Rajat Agarwal	1.9.2003 (FN)
31.	Pritam B Yashvant	1.9.2003 (FN)
32.	Kona Sasidhar	1.9.2003 (FN)
33.	Sumant Singh	1.9.2003 (FN)
34.	Krishna Kunal	1.9.2003 (FN)
35.	Adusumilli V Raja Mouli	1.9.2003 (FN)
36.	Vivek Pandey	1.9.2003 (AN)

1	2	3
37.	Sanjeev Kumar	2.9.2003 (FN)
38.	Shaila Beevi A	3.9.2003 (FN)
39.	Jawalkar Dilipkumar Rajaram	1.9.2003 (FN)
40.	Sowjanya	5.9.2003 (FN)
41.	Ananda Kumar R	2.9.2003 (AN)
42.	Jawale Nitin Bhanudas	1.9.2003 (FN)
43.	Niraj Kumar Pawan	1.9.2003 (FN)
44.	Kurve Sachin Sharadchandra	1.9.2003 (FN)
45.	Solanki Pravinbhai Khodabhai	1.9.2003 (FN)
46.	Vikas Gothaiwal	1.9.2003 (FN)
47.	Sripriya Rengarajan	5.9.2005 (FN)
48.	Babu A	1.9.2003 (FN)
49.	Pinky Jowel	1.9.2003 (FN)
50.	Nishant Warwade	1.9.2003 (FN)
51.	Jayant Narlikar	1.9.2003 (FN)
52.	Anupam Kumar	1.9.2003 (FN)
53.	Pardeshi Siddhartha Komal	1.9.2003 (FN)
54.	Swaroop P	1.9.2003 (FN)
55.	Sudha Devi M	1.9.2003 (FN)
56.	Ajeet Kumar Sahu	7.9.2003 (AN)
57.	Aboobacker Siddique P	3.9.2003 (FN)
58.	Padma Mahto	3.9.2003 (AN)
59.	Jaffer P. C.	3.9.2003 (FN)
60.	Regzian Sampheal	16.12.2004 (AN)
61.	Patil Dnyaneshwar Shalchandra	9.9.2003 (FN)
62.	Lokesh Kumar Singh	16.12.2004 (AN)
63.	Jayashree S Bhoj	1.9.2003 (AN)
64.	Patibandla Ashok Babu	1.9.2003 (FN)
65.	Yogita Rana	1.9.2003 (FN)
66.	Asangba Chuba AO	1.9.2003 (FN)
67.	Kangale Reena Bahasaheb	1.9.2003 (FN)
68.	Prawin Kumar Toppo	1.9.2003 (FN)
69.	Manoj Kumar Meena	1.9.2003 (FN)
70.	Rathan U Kelkar	1.9.2003 (FN)

## The 10th February 2006

No. 13013/3/2002-AIS(I)—In exercise of the powers conferred by Sub-rule (1) of Rule 5 of the Indian Administrative Service (Cadre) rules, 1954, the Central Government allocates the cadre officers mentioned in Column 2 of the table below who have been appointed to the Indian Administrative Service on the basis of the results of the Civil Services Examination, 2001 to the cadre mentioned against their names in Column 3 thereof :

Sr. No.	Name of the cadre officer	Cadre to which allocated
1	2	3
1.	Satyaprakash TL	Haryana
2.	Abhishek Jain	Himachal Pradesh
3.	Manish Ranjan	Jharkhand
4.	Dinesh Arora	Kerala
5.	Ajeet Kumar	Madhya Pradesh
6.	P Velrasu	Maharashtra
7.	Nitesh Kumar Jha*	Manipur-Tripura
8.	Krishan Kumar*	Nagaland
9.	Girish S N	Orissa
10.	Padmini Goyal	AGMUT
11.	Pankaj Kumar	Uttar Pradesh
12.	Radhika Shukla	Sikkim
13.	Sigy Thomas K	Tamilnadu
14.	Smaraki Mahapatra	West Bengal
15.	Saurabh Gaur	Andhra Pradesh
16.	Prithviraj	Rajasthan
17.	Kamal Preet Singh	Chhattisgarh
18.	Mrinalini Darswal*	Manipur-Tripura
19.	Archana Patnaik	Tamilnadu
20.	Debjani Chakrabarti	Orissa
21.	Manjula N	Karnataka
22.	Nikhil Kumar	AGMUT
23.	C Sudharsan Reddy	Andhra Pradesh
24.	Shailesh Bagauli	Uttaranchal
25.	Saurabh Jain	Kerala
26.	Sanjay Kumar Agarwal	Bihar
27.	Gedam Praveen Nilkanthrao	Maharashtra
28.	Sameer Verma	Uttar Pradesh
29.	Sanjay Kumar	Manipur-Tripura

K. K. SHARMA, Desk Officer

1	2	3
30.	Baldeo Purushartha	Manipur-Tripura
31.	Mohammed Shayin	Haryana
32.	Manisha Trighatia	Punjab
33.	Saurabh Bhagat	Jammu & Kashmir
34.	Shamla Ahammed	Karnataka
35.	M Selvendran	Madhya Pradesh
36.	Anup Kumar Yadav	Maharashtra
37.	Pankaj Kumar Pal	Manipur-Tripura
38.	M Imkongla Jamir	Karnataka
39.	Zade Vijay Namdeorao	Punjab
40.	Teli Ashutosh A	Rajasthan
41.	Borkar Chandrashekhar Namdeo	Madhya Pradesh
42.	D Senthil Pandiyan	Uttaranchal
43.	Senthil Pandian C	Uttar Pradesh
44.	Saumitra Mohan	West Bengal
45.	M Angamuthu	Assam-Meghalaya
46.	Pankaj Kumar	Maharashtra
47.	Pratima Satishkumar Varma	Bihar
48.	Rohit Yadav	Chhattisgarh
49.	Jai Prakash Shivahare	Gujarat
50.	Archana*	Manipur-Tripura
51.	Vikas Anand	AGMUT
52.	Gouri Shanker	Uttar Pradesh
53.	Avanindra Singh	West Bengal
54.	Jyoti Buddha Prakash	Andhra Pradesh
55.	Samayamoorthy C	Tamilnadu
56.	Saravanan M	Bihar
57.	Sandeep Kumar	Gujarat
58.	Lochan Singh Meena	Gujarat
59.	Mebanshailang R Synrem	Assam-Meghalaya

(\*) Note :—Nitesh Kumar Jha has been transferred to the cadre of Sikkim; Krishn Kumar and Mrinalini Darswal have been transferred to the cadre of Orissa; Archana has been transferred to the cadre of West Bengal.

K. K. SHARMA, Desk Officer

New Delhi, the 8th February 2006

No. A-32013/1/-2006-Ad. I(G)—The President is pleased to appoint Ms. Smita Kumar, IPoS(87), as Director

in the Department of Personnel & Training with effect from the forenoon of 16th January, 2006 for a period of five years, or until further orders whichever is earlier.

V. K. VELUKUTTY, Under Secy.

No. A-32014/2/-2006-Ad. I(G)—The President is pleased to appoint Shri Rajbir Singh, Assistant of the CSS borne on the strength of MHA as Section Officer on adhoc basis in the Department of Personnel & Training in the pay scale of Rs. 6500-200-10500 w.e.f. the forenoon of 21st September, 2005 until further orders subject to the conditions laid down in MHA's Office Order No. A.43020/25/2004-Ad.I dated 5 January, 06.

V. K. VELUKUTTY, Under Secy.

New Delhi-110067, the 1st February 2006

No. A-13016/01/-2005-Trg.—The President is pleased to appoint Shri K. S. Kumar, Joint Director, MS Branch/Army Headquarters, Ministry of Defence as Joint Director (Peripatetic Training) in the Institute of Secretariat Training and Management (ISTM), New Delhi, on deputation basis, for a period of 5 years with effect from the forenoon of 2nd January, 2006 or until further orders whichever is earlier.

MANISHA BHATNAGAR, Desk Officer (Trg.)

#### MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

##### OFFICE OF THE DEPUTY CHIEF OF PROTOCOL (F)

New Delhi, the 4th January 2006

No. D-III/460/CF-26/2005.—The President of India is pleased to recognise the appointment of Mr. Dilip Dandekar as Honorary Consul of the Republic of Mongolia in Mumbai with immediate effect.

The consular jurisdiction of Mr. Dilip Dandekar comprises the state of Maharashtra.

P. P. SIRCAR, Dy. Chief of Protocol (F)

#### MINISTRY OF OVERSEAS INDIAN AFFAIRS

New Delhi, the 9th December 2005

No. A. 12011/2/2005-Estt.—In pursuance of Department of Personnel and Training Order No. 21/24/2005-CS.I dated 7 July, 2005, the President is pleased to appoint Mrs. Garima Singh (CSL No. 4636-A), Shri Nitin Kumar (CSL No. 4797-A) and Shri S. S. Rana (CSL No. 5152), Section Officers of CSS Cadre of Ministry Chemical & Fertilizer (Department of Fertilizer), Ministry of Defence and Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) respectively as Under Secretaries in the Ministry of

Overseas Indian Affairs, on adhoc basis in the scale of pay of Rs. 10000-325-15200 with effect from the date mentioned against each and till further orders:—

S. No.	Name	CSL No.	Date
1.	Mrs. Garima Singh	4636-A	14.07.2005(FN)
2.	Shri Nitin Kumar	4797-A	14.07.2005(FN)
3.	Shri S. S. Rana	5152	29.07.2005(FN)

2. The aforesaid appointments of Garima Singh and S/Shri Nitin Kumar and S. S. Rana on adhoc basis is subject to the following conditions :—

(i) The adhoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the select list for regular appointment or to claim seniority in the Grade I (Under Secretary) of CSS;

(ii) The ad-hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefore.

S. P. TRIPATHI, Dy. Secy.

The 13th December 2005

No. A. 12011/2/2005-Estt.—Consequent upon his inclusion in the Select List (SL) of 1997 for Selection Grade of Central Secretariat Services (CSS) as per orders contained in DOP&T OM No. 4/10/2005-CS.I(i) dated 15th September, 2005 relating to the SLs for 1995, 1996 and 1997, the President is pleased to appoint Shri M. C. Arora a Group-A Officer of the Ministry of Overseas Indian Affairs, to the Selection Grade of CSS (Deputy Secretary) on regular basis w.e.f. 01 July, 1997 and until further orders.

2. His inter-se seniority in Selection Grade of CSS will follow the serial order given in their respective SLs, irrespective of his actual date of appointment to the Selection Grade.

S. P. TRIPATHI, Dy. Secy.

#### MINISTRY OF FINANCE

(DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)

New Delhi, the 7th February 2006

No. 3/28/03-Cy.III.—The President is pleased to appoint Shri B. K. Pathak, Deputy General Manager in the India Security Press, Nashik Road as General Manager (Group 'A'-Gazetted) Security Paper Mill, Hoshangabad in the pay scale of Rs. 18400-500-22400/- on regular basis with effect from the forenoon of 10th December, 2005 and until further orders.

NAVIN K. CHOUDHARY, Dy. Secy.

New Delhi, the 6th February 2006

No. A. 12011/9/2004-Admn.II.—In pursuance of Department of Personnel & Training Order No. 4/13/2005-

CS.I dated 31 January, 2006, the President is pleased to appoint Shri L. C. Mahrra, Under Secretary of CSS in the Ministry of Social Justice & Empowerment as Deputy Secretary in the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance in the pay scale of Rs. 12000-375-16500 on ad hoc basis with effect from the forenoon of 3rd February 2006 and until further orders.

2. Ad-hoc promotion of the Shri L. C. Mahrra shall not confer any right to continue in the Selection Grade of CSS (Deputy Secretary) indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Selection Grade.

3. The aforesaid Ad-hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.

V. RAMKUMAR, Under Secy.

New Delhi, the 10th February 2006

No. A. 19011/6/2006-Admn.II.—The President is pleased to appoint Shri Kumar Sanjay Krishna, IAS (AM : 85), as Joint Secretary in the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, with effect from the forenoon of 7th February 2006 for the balance period of his central deputation tenure of 5 years i.e. up to 15 Aug., 2009 or until further orders, whichever event takes place earlier.

S. K. GHILDIYAL, Under Secy.

#### (BANKING DIVISION)

New Delhi-110001, the 6th February 2006

No. A-12026/2/2005-DRT.—In exercise of the powers conferred by Section 9 read with Section 11 of the Recovery of Debts due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 (51 of 1993), the Central Government hereby appoints Justice S. S. Parkar, Judge (Retired), Bombay High Court, as Chairperson of Debts Recovery Appellate Tribunal, Mumbai for a period of five years, with effect from 2nd February, 2006 (F.N.) or till he attains the age of 65 years whichever is earlier.

R. K. SHARMA, Dy. Secy.

#### (DEPARTMENT OF EXPENDITURE)

OFFICE OF THE CONTROLLER GENERAL OF ACCOUNTS

New Delhi-110003, the 1st February 2006

No. A-31013/1/2005/Gr.A/120-43.—The President is pleased to appoint Shri S. W. Oak, an officer of 1969 batch of Indian Civil Accounts Service, as Controller General of Accounts, Ministry of Finance, D/o Expenditure in the pay scale of Rs. 26000/- (fixed) with effect from the forenoon of 1st February, 2006 and until further orders.

RENU C. DESHPANDE, Dy. Cont. Genl. of Accounts



## (DEPARTMENT OF DISINVESTMENT)

New Delhi-110003, the 6th February 2006

No. 9/6/2005-Admn.—In continuation of this Department's notification No. 9/6/2005-Admn. dated 19th July, 2005, the President is pleased to continue the appointment of Shri M. S. Sharma, Private Secretary of the Central Secretariat Stenographers Service to the post of Principal Private Secretary on ad-hoc basis in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200, for a further period of six months with effect from 01.01.2006 to 30.06.2006 or till regular officers become available, whichever is earlier, in terms of O.M. No. 5/16/2003-CS.II date the 13th December, 2005 of the Department of Personnel and Training and in pursuance of department of Expenditure (Cadre Administration Section) O.M. No. A-32022/1/2004-CAS dated 04/01/2006.

2. The other terms and conditions of ad-hoc appointment as mentioned in Notification of even number dated 30.5.2005 will remain unchanged.

S. K. SHARMA, Under Secy.

## MINISTRY OF COMMERCE &amp; INDUSTRY

## (DEPARTMENT OF INDUSTRIAL POLICY &amp; PROMOTION)

## OFFICE OF ECONOMIC ADVISER

New Delhi, the 24th January 2006

No. A-22012/1/2005-Ec.Ad (Admn.I).—The President is pleased to appoint Dr. S. K. Mukherjee, Non-Functional Grade Officer of IES as Additional Economic Adviser in the Office of Economic Adviser, Department of Industrial Policy & Promotion, Ministry of Commerce & Industry in the pay scale of Rs. 14,300-400-18,300 with effect from the forenoon of 14th December, 2005.

SAMARENDRA SAHU, Additional Economic Adviser

The 30th January 2006

No. A-22012/1/2005-Ec.Ad (Admn.I).—Ms. Divya Parmar an Indian Economic Service Probationer after the completion of her probation training at the Institute of Economic Growth has assumed the charge of the post of Assistant Director (Grade IV post of Indian Economic Service) (Scale of pay : Rs. 8,000-275-13,500/-) in this Office with effect from the forenoon of 27th January, 2006.

SAMARENDRA SAHU, Additional Economic Adviser

The 2nd February 2006

No. A-22012/1/2005-Ec.Ad (Admn.I).—Consequent upon his promotion to Grade IV of Indian Economic Service

in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/- on regular basis vide Department of Economic Affairs Order No. A.11016/3/2004-IES dated 18.01.2006, Sh. Sanyasi Pradhan, has assumed the charge of the post of Assistant Director in the Office of Economic Adviser, Ministry of Commerce & Industry with effect from the afternoon of 31st January, 2006.

SAMARENDRA SAHU, Additional Economic Adviser

## MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

## (DEPARTMENT OF CHEMICALS AND PETROCHEMICALS)

New Delhi, the 31st January 2006

No. A-32011/5/2002-Estt.—The President is pleased to appoint Shri Kailash Nath, a regular Deputy Industrial Adviser of this Department to the post of Joint Industrial Adviser in the scale of pay of Rs. 12,000-375-16,500/- w.e.f. the 5th January, 2006 with all consequential benefits.

R. P. VASISHTHA, Under Secy.

## MINISTRY OF ENVIRONMENT &amp; FORESTS

New Delhi, the 2nd February 2006

No. 17013/17/2005-IFS.II.—In exercise of the provisions contained in Sub-Regulation (3) of Regulation 7 of the Indian Forest Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1966, a meeting of the Selection Committee for preparation of the Select List for the year 2005 was held on 11th November, 2005. Union Public Service Commission have now approved the Select List for the year 2005 prepared in the said meeting containing the names of the undermentioned member of the State Forest Service of Sikkim towards filling up of two promotion quota vacancies available in Sikkim Cadre of the IFS cadre as on 1st January, 2005.

S. No.	Name	Date of Birth
	S/Shri	
1.	Topdhan Rai	20.08.1957
2.	C. S. Pradhan	24.02.1956

ASHOK KUMAR, Under Secy.

## MINISTRY OF HEALTH &amp; FAMILY WELFARE

## (DEPARTMENT OF HEALTH &amp; FW)

New Delhi, the 30th January 2006

No. A. 32013/8/2005-E.I.—Consequent upon his promotion to Grade-I (Under Secretary) of CSS on ad-hoc basis vide Department of Personnel & Training's Order No. 21/24/2005-CS.I dt. 17th January, 2006, the President

is pleased to appoint Sh. Anil Kumar, Section Officer of the cadre of Ministry of Water Resources, as Under Secretary in the Department of Health & FW, purely on adhoc basis w.e.f. the forenoon of 19th January, 2006 and until further orders. The adhoc promotion is subject to the following condition :—

1. The adhoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select list for regular appointment or to claim seniority in the Grade-I.
2. Adhoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.

P. G. KALADHARAN, Under Secy.

New Delhi, the 13th February 2006

No. A. 35014/26/2003-CHS V.—The President is pleased to appoint Dr. (Mrs.) Rajika Aggarwal an officer of the Govt. of Gujarat to the post of Senior Medical Officer in the pay scale of Rs. 10,000—15,200/- in Central Health Service on deputation basis for a period of three years, with effect from the forenoon of the 6.9.2005 under CGHS Delhi. Dr. (Mrs.) Rajika Aggarwal is posted to CGHS Delhi w.e.f. the same date.

P. K. CHAKRABARTI, Under Secy.

DEPARTMENT OF AYURVEDA, YOGA &  
NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA & HOMOEOPATHY  
(AYUSH)

New Delhi, the 27th January 2006

No. A-22012/1/99-ISM(E.II).—The President is pleased to appoint Shri Verghese Samuel, an officer belonging to Indian Administrative Service (JK : 76) as Joint Secretary, against a newly created post, in the Department of Ayurveda, Yoga & Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy (AYUSH), Ministry of Health & Family Welfare in the scale of pay of Rs. 18,400-500-22,400/- w.e.f. the forenoon of 27th January, 2006 for the period of the continuance of the post or a period of 5 years or until further orders, whichever is earlier.

ANSHUMANN SHARMA, Under Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE  
(DEPARTMENT OF AGRICULTURE &  
COOPERATION)

New Delhi, the 17th January 2006

No. 29-2/2005-PP.II.—The President is pleased to appoint Dr. Hari Prasad, Deputy Director (Chemistry) under the Directorate of Plant Protection, Quarantine & Storage, as Joint Director (Chemistry) in the pay scale of Rs. 12,000—16,500/- in the same Directorate on

promotion basis with effect from the forenoon of the 16th December, 2005.

SATWANT SINGH, Under Secy.

New Delhi, the 18th January 2006

No. 12022/7/2002-E-I.—Consequent upon qualifying the Section Officers' grade Limited Departmental Competitive Examination, 2003 and inclusion of his name in the Select List of Section Officers' grade of the Central Secretariat Service (CSS), the President is pleased to appoint Shri Sunil Kumar (Rank No. 216), a regular Assistant (CSS) as Section Officer in the pay scale of Rs. 6500-200-10,500/- (Group 'B' Gazetted) in the Department of Agriculture & Cooperation with effect from the afternoon of 9.12.05.

2. The appointment is subject to the final outcome of the Writ Petition (C) No. 13245-60/2005 filed by Shri Kailash Chander & Others Vs Union of India & Others before Hon'ble High Court of Delhi.

P. VIJAY KUMAR, Under Secy.

The 27th January 2006

No. 19011/407/2002-EII/V(Vol. II).—With the approval of Competent Authority, Dr. T. I. Mathewkutty, a regular Deputy Director, Coconut Development Board and presently holding the post of Additional Commissioner (Extension) in the Department of Agriculture & Cooperation on deputation basis in the pay scale of Rs.14,300-400-18,300 is relieved w.e.f. 27.1.2006 (AN).

2. Dr. T. I. Mathewkutty is directed to report to Secretary, Coconut Development Board, Ministry of Agriculture, Kochi-682011 (Kerala) for further posting.

P. VIJAY KUMAR, Under Secy.

New Delhi, the 31st January 2006

No. A-19012/8/2006-E.A.—The President is pleased to appoint Shri K. S. Kalasua, a Junior Administrative Grade (JAG) officer of Indian Economic Service (IES), to the post of Deputy Economic Adviser in the Directorate of Economics and Statistics, Department of Agriculture and Cooperation, with effect from the forenoon of the 28th December, 2005, in the pay scale of Rs.12,000-375-16,500/-.

RAJ KUMAR, Under Secy.

The 02nd February 2006

No. A-19012/4/2006-E.A.—The President is pleased to appoint Shri J. C. Prasad, a Junior Administrative Grade (JAG) officer of Indian Economic Service (IES), to the post of Deputy Economic Adviser in the Directorate of

Economics and Statistics, Department of Agriculture and Cooperation, with effect from the forenoon of the 16th December, 2005, in the pay scale of Rs. 12,000-375-16,500/-.

RAJ KUMAR, Under Secy.

New Delhi, the 10th February 2006

No. 5(3)/04-INM-A.—The President is pleased to appoint Shri R. B. Sharma, Senior Fertilizer Inspector (Group 'B' Non-Gazetted) to the post of Assistant Director (GCS, Group A) in the scale of pay of Rs. 8,000—13,500/- on ad hoc basis with effect from 17.11.2005 to 17.1.2006 in the Central Fertilizer Quality Control & Training Institute, Faridabad under Department of Agriculture & Cooperation, Ministry of Agriculture.

S. K. GAUTAM, Under Secy.

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT  
(DEPARTMENT OF LAND RESOURCES)

New Delhi, the 6th February 2006

No. A-12023/3/2005-Admn.—With the approval of the Competent Authority, Shri Sunil Kumar, Junior Technical Assistant in the Department of Agriculture and Cooperation is appointed as Technical Officer in the Department of Land Resources in the pay scale of Rs. 6,500-200-10,500/- on deputation basis for a period of three years with effect from the forenoon of 1st February, 2006, until further orders.

H. C. S. RAWAT, Under Secy.

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

New Delhi, the 17th January 2006

No. A-12024/3/2005-E-III.—In pursuance of the Department of Personnel & Training's O.M. No. 5/10/2005-CS-II dated 16.8.2005, the President is pleased to appoint Shri Raj Kumar-II, Stenographers' Grade 'C' belonging to CSSS cadre of Ministry of Human Resource Development, Deptt. of Secondary & Higher Education as Stenographer Grade 'A' & 'B' (Merged) (Private Secretary) in the cadre of Department of Secondary & Higher Education in the scale of Rs. 6,500—10,500/- on regular basis (select list-2002) w.e.f. 16.01.2006.

S. N. GUPTA, Under Secy.

No. A-12024/3/2005-E-III.—In pursuance of the Department of Personnel & Training's O.M. No. 5/10/2005-CS-II dated 16.8.2005, the President is pleased to appoint Ms. Promila Marwaha, Stenographers' Grade 'C' belonging to CSSS cadre of Ministry of Human Resource

Development, Deptt. of Secondary & Higher Education as Stenographer Grade 'A' & 'B' (Merged) (Private Secretary) in the cadre of Department of Secondary & Higher Education in the Scale of Rs. 6,500—10,500/- on regular basis (select list-2003) w.e.f. 16.01.2006.

S. N. GUPTA, Under Secy.

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND  
INFORMATION TECHNOLOGY  
(DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY)  
NATIONAL INFORMATICS CENTRE

New Delhi-110003, the 25th January 2006

No. A-39013/1/2005-Admn.I.—The President is pleased to accept the resignation of Shri Mridul Moitra, Emp. Code-3005, from the post of Scientist 'E', National Informatics Centre, New Delhi, from the afternoon of 25th January 2006 and he is relieved of his duties w.e.f. 25th January 2006 (AN).

R. M. NAIR, Dy. Director (P&E I)

MINISTRY OF RAILWAYS  
(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 1st February 2006

No. ERB-I/2005/3/1.—Shri Partap Singh, Assistant, Railway Board has been appointed as Section Officer of Railway Board Secretariat Service, on adhoc basis in the scale of Rs. 6,500-10,500/- (RSRP) with effect from the forenoon of 04-01-2006.

M. K. AGARWAL, Secy., Railway Board

The 6th February 2006

No. ERB-I/2004/3/11.—The following Hindi Assistants (Scale Rs. 5500—9000), Railway Board, have been promoted as Section Officer (Hindi), Railway Board (Scale Rs. 6,500—10,500) on regular basis with effect from the forenoon of 24-01-2006 :—

1. Mrs. Kiran Bala Ghai
2. Shri Anup Singh Bisht
3. Mrs. Ravi Nandini Sharma
4. Mrs. Shraddha Karanjgaonkar.

M. K. AGARWAL, Secy., Railway Board

The 7th February 2006

No. E(GP)2003/1/59.—The President is pleased to approve of Shri K. Prabhakar Rao, a Group 'B' officer of Personnel Department of Southern Railway, being appointed substantively to the Group 'A'/Junior Scale of Indian Railway Personnel Service (IRPS) with effect from 13th December, 2005 on that Railway, against the panel for the year 2004-05.

M. K. AGARWAL, Secy., Railway Board

The 10th February 2006

No. E(GP)2002/1/49.—The President is pleased to approve of Shri K. K. Dwivedi, a Group 'B' officer of Civil Engineering Department of Central Railway, now working in West Central Railway, being appointed substantively to the Group 'A'/Junior Scale of Indian Railway Service of Engineers with effect from 17th February, 2005 on that Railway, against the panel for the year 2003-04.

Shri K. K. Dwivedi would however, be entitled to monetary benefit in Junior Scale w.e.f. 01.10.2005 only.

M. K. AGARWAL, Secy., Railway Board

#### MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS

(DEPARTMENT OF ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS)

New Delhi, the 7th February 2006

No. A-20012/863/2001-E.I.—The President is pleased to appoint Shri Shiv Singh Meena, an Officer of Grade IV (Junior Time Scale) of Indian Economic Service as Assistant Director in the pay scale of Rs. 8000-275-13500/- in the Ministry of Shipping, Road Transport and Highways w.e.f. 18.1.2006 (afternoon).

VIRENDRA SINGH, Under Secy.

#### MINISTRY OF POWER

New Delhi, the 8th February 2006

No. 1-A/2006 (F. No. A-38012/1/2006-Adm. I).—Shri R. C. Bansal, Director, Central Electricity Authority and an officer of the Central Power Engineering (Group A) Service, retired from service under the Government of India in the afternoon of 31st December, 2005 on attaining the age of superannuation.

R. C. ARORA, Under Secy.

No. 2/2006 (F. No. A-38012/1/2006-Adm. I).—Shri K. R. Jain, Deputy Director, Central Electricity Authority and an officer of the Central Power Engineering (Group A) Service, retired from service under the Government of India in the afternoon of 31st December, 2005 on attaining the age of superannuation.

R. C. ARORA, Under Secy.

No. 3/2006 (F. No. A-38012/1/2006-Adm. I).—Shri S. K. Bhatia, Deputy Director, Central Electricity Authority and an officer of the Central Power Engineering (Group A) Service, retired from service under the Government of India in the afternoon of 31st December, 2005 on attaining the age of superannuation.

R. C. ARORA, Under Secy.

#### MINISTRY OF NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES

New Delhi-110 003, the 2nd February 2006

No. 6/376/06-Adm. I.—In pursuance of Department of Personnel & Training's Order No. 22/1/2006-EO(SM-I) dated 30.01.2006 Shri V. Subramanian, IAS (WB-71) has assumed charge of the post of Secretary, Ministry of Non-Conventional Energy Sources with effect from the forenoon of 01-02-2006.

S. C. SARKAR, Under Secy.

#### MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, the 7th February 2006

No. 1/2006. (F. No. 20/28/2003-Adm.)—The President is pleased to appoint Dr. P. K. Mehrotra, IP&T AFS on Central deputation as Director (Brahmaputra) in the pay-scale of Rs. 14300—18300/- in the Ministry of Water Resources (Proper) for a period of five years with effect from the forenoon of 01.02.2006.

N. K. GUPTA, Under Secy.

#### MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

New Delhi-110011, the 10th February 2006

##### RESOLUTION

No. E-11015/1/99-Hindi.—In partial modification of this Ministry's Resolution of even No. dated 19th May, 2005 regarding constitution of Joint Hindi Salahakar Samiti for Ministries of Urban Development and Urban Employment & Poverty Alleviation, the Government of India have decided to nominate Minister of State in the Ministry of Urban Development as Vice Chairman of the Committee. Hence the following entry has been inserted after Serial No. 2 :

"2A. Minister of State for Urban Development—Vice Chairman."

The other terms and conditions will remain same.

##### ORDER

Ordered that a copy of this Resolution be communicated to all the State Governments/Union Territory Administrations, President's Secretariat, Prime Minister's Office, Cabinet Sectt., Planning Commission, Comptroller & Auditor General of India, Lok Sabha Sectt., Rajya Sabha Sectt., all the Ministries and Departments of the Government of India.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

M. RAJAMANI, Joint Secy.